



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 33] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 13—अगस्त 19, 2011 (श्रावण 22, 1933)

No. 33] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 13—AUGUST 19, 2011 (SRAVANA 22, 1933)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग I—खण्ड 2

### [PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

प्रधान मंत्री कार्यालय

नई दिल्ली-110101, दिनांक 21 जुलाई 2011

सं. ए-22012/004/2011-पीएमई--प्रधान मंत्री कार्यालय की दिनांक 27.07.2010 की अधिसूचना के अधिक्रमण में, राष्ट्रपति, श्री धीरज कुमार श्रीवास्तव, राजस्थान प्रशासनिक सेवा (1994) की अध्यक्ष, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के निजी सचिव के रूप में सेवाएं दिनांक 04.07.2011 से आगे 14.07.2015 तक अथवा अगले आदेश होने तक, इसमें से जो भी पहले हो, सह-समाप्य आधार पर बढ़ाती हैं।

पी.के. बाली, अवर सचिव

दिनांक 22 जुलाई 2011

सं. ए. 22012/1/2011-पीएमई--राष्ट्रपति, श्री कृष्ण कुमार आईएएस (पी.बी : 1997) को प्रधान मंत्री कार्यालय में दिनांक 22 जुलाई, 2011

(पूर्वाह्न) से पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश होने तक, इसमें से जो भी पहले हो, निदेशक नियुक्त करती हैं।

पी.के. बाली, अवर सचिव

दिनांक 26 जुलाई 2011

सं. ए. 22012/1/2011-पीएमई--श्री सुधाकर दलेला (भा.वि.सेवा : 1993) की भारतीय दूतावास, वाशिंगटन में काउंसलर के पद पर नियुक्ति हो जाने के फलस्वरूप, उन्होंने दिनांक 26 जुलाई, 2011 (अपराह्न) से प्रधान मंत्री कार्यालय में निदेशक के पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

पी.के. बाली, अवर सचिव

दिनांक 27 जुलाई 2011

सं. ए. 22012/1/2011-पीएमई--राष्ट्रपति, श्री मनु महावर, आईएएस (1996) को प्रधान मंत्री कार्यालय में दिनांक 26 जुलाई, 2011 (अपराह्न)

से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, निदेशक नियुक्त करती हैं।

पी.के. बाली, अवर सचिव

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 28 जुलाई 2011

सं. आरएस./6/5/2011/57-कार्मिक--श्रीमती प्रतिभा शुक्ला को 12 जुलाई, 2011 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक राज्य सभा में बहुजन समाज पार्टी (बी.एस.पी.) के नेता (श्री सतीश चन्द्र मिश्रा) के वैयक्तिक स्टाफ में 15,600--39,100/- रु. के वेतन बैंड-3 + 5,400/- रु. के ग्रेड वेतन में राज्य सभा सचिवालय में निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है।

2. श्रीमती प्रतिभा शुक्ला की नियुक्ति राज्य सभा में बहुजन समाज पार्टी के वर्तमान नेता के विवेकाधीन है और उनके कार्यकाल के साथ ही समाप्त हो जाएगी।

एस. रंगराजन, उप निदेशक

सं. आरएस./6/4/2011/60-कार्मिक--श्री मनीष कुमार, जिन्हें सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों संबंधी समिति के अध्यक्ष (श्री तारिक अनवर) के वैयक्तिक स्टाफ में सह-पदावसान आधार पर वरिष्ठ निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था, की सेवाएं 22 जुलाई, 2011 के अपराह्न से समाप्त की जाती हैं।

एस. रंगराजन, उप निदेशक

दिनांक 29 जुलाई 2011

सं. आरएस./3/7/1/2011/59-कार्मिक--राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में कार्यरत सहायक निदेशक (संपादन और अनुवाद), श्री जुगल किशोर को 28 जुलाई, 2011 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में 15,600--39,100/- रु. के वेतन बैंड-3 तथा 7,600/- रु. के ग्रेड वेतन और नियमों के अधीन स्वीकार्य सामान्य भत्तों के साथ उप निदेशक (संपादन और अनुवाद) के ग्रेड में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

एस. रंगराजन, उप निदेशक

दिनांक 1 अगस्त 2011

सं. आरएस. 20/1/2011/61-कार्मिक--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर, श्रीमती वंजुला जी. राजन, संयुक्त निदेशक 31 जुलाई, 2011 के अपराह्न से सेवा निवृत्त हो गईं।

एस. रंगराजन, उप निदेशक

अन्तरिक्ष विभाग

बैंगलूर-560231, दिनांक 21 जुलाई 2011

सं. 11/1(1)/2011-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, देहरादून में डॉ. पी.एस. राय को निदेशक के पद पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 30.04.2011 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं।

एन. पट्टाभि रामन, अवर सचिव

दिनांक 22 जुलाई 2011

सं. 5/1(1)/2011-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के इसरो उपग्रह केन्द्र, बैंगलूर में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों को प्रत्येक के सामने दिए गए पदों पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 01.01.2011 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं :-

क्र. सं.	नाम	पद जिससे पदोन्नति की गई	पद जिस पर पदोन्नति की गई
	श्री/श्रीमती/कु.		
1.	आर. गोपीनाथ	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ.
2.	एन. प्रसाद	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ.
3.	देबासीस चक्रवर्ती	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी.
4.	रमेश बी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ.
5.	पद्मनाभन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ.

एन. पट्टाभि रामन, अवर सचिव

सं. 5/1(1)/2011-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग इसरो उपग्रह केन्द्र, बैंगलूर में निम्नलिखित वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी. को अस्थायी रूप में दिनांक 10.12.2010 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं :-

श्री/श्रीमती/कु.

1. दिलीप कुमार राजपूत
2. हुसेन बाशा खानूभाई
3. अन्शुल जिन्दल
4. मानस रंजन साहू
5. प्रशांत कुमार राय
6. अलोक कुमार
7. मुकुन्द कुमार ठाकुर
8. विवेक कुमार
9. आनन्द एस.के.
10. हर्ष कुमार दशोरा

एन. पट्टाभि रामन, अवर सचिव

सं. 5/1(1)/2011-I--राष्ट्रपति, अंतरिक्ष विभाग के इसरो उपग्रह केन्द्र, बेंगलूर में श्री चन्दन मलकर को वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी. के पद पर अस्थायी रूप में दिनांक 14.12.2010 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं।

एन. पट्टाभि रामन, अवर सचिव

सं. 5/1(2)/2011-I--अंतरिक्ष विभाग के इसरो उपग्रह केन्द्र, बेंगलूर में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों ने अपने निवर्तन आयु प्राप्ति के परिणामस्वरूप प्रत्येक के सामने दिए गए पद से दिनांक 31.03.2011 के अपराह्न से कार्यभार छोड़ दिया है :--

क्र. सं.	नाम	पद
	श्री/श्रीमती/कु.	
1.	एम. कृष्णस्वामी	विशिष्ट वैज्ञानिक
2.	एच.एन. भगवान	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी.
3.	बी. रविनारायण भट्ट	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी.
4.	एम.एस. श्रीकंठस्वामी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी.
5.	एम.एच. कृष्णप्पा	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी.

एन. पट्टाभि रामन, अवर सचिव

सं. 7/1(1)/2011-I--राष्ट्रपति, अंतरिक्ष विभाग के द्रव नोदन प्रणाली केन्द्र, बेंगलूर में श्री अशोक के. को वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी के पद पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 01.01.2011 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं।

एन. पट्टाभि रामन, अवर सचिव

सं. 7/1(2)/2011-I--राष्ट्रपति, अंतरिक्ष विभाग के द्रव नोदन प्रणाली केन्द्र, वलियमला में श्री पराग बर्मन, वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी का सेवा से त्यागपत्र दिनांक 19.04.2011 के अपराह्न से स्वीकार करते हैं।

एन. पट्टाभि रामन, अवर सचिव

#### योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 14 जुलाई 2011

सं. ए-43011/05/2011-प्रशा.-I--मंत्रिमंडल की दिनांक 02 जून, 2011 को हुई बैठक के कार्यवृत्त के तहत प्राप्त अनुमोदन के अनुसरण में स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय (आईईओ) का एतद्द्वारा गठन किया जाता है और योजना आयोग के तत्वावधान में एक सम्बद्ध कार्यालय के रूप में अधिसूचित किया जाता है ताकि विकास मूल्यांकन सलाहकार समिति (डीईएसी) अथवा भारत सरकार, जैसा भी मामला हो, द्वारा इसे समय-समय पर सौंपे जाने वाले विभिन्न प्रमुख कार्यक्रमों, स्कीमों आदि का स्वतंत्र मूल्यांकन किया जा सके।

2. संरचना : आईईओ की प्रारंभिक संरचना निम्नानुसार होगी :--

पद	स्तर	पदों की संख्या
महानिदेशक	योजना आयोग के सदस्य के रैंक और दर्जे के बराबर	1
निदेशक	एचएजी वेतनमान	4
संयुक्त सचिव	एसएजी वेतनमान	1
कुल :		6

3. कार्य और कार्यप्रणाली :

- (i) आईईओ का मार्गदर्शन विकास मूल्यांकन सलाहकार समिति (डीईएसी) द्वारा किया जाएगा, जो अनुसंधान के क्षेत्रों के मार्गदर्शन और प्राथमिकता-निर्धारण तथा अपनायी जाने वाली कार्य-प्रणालियों के लिए शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करेगी।
- (ii) आईईओ का एक शासी मंडल होगा जिसकी अध्यक्षता योजना आयोग के उपाध्यक्ष द्वारा की जाएगी। महानिदेशक, आईईओ; सदस्य-सचिव अथवा सचिव, योजना आयोग, प्रधान मंत्री कार्यालय का प्रतिनिधि; वित्त मंत्रालय का प्रतिनिधि; भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् अथवा सचिव (सांख्यिकी) और दो विशेषज्ञ (जिनका चयन डीईएसी द्वारा किया जाएगा) इस शासी मंडल के सदस्य होंगे।
- (iii) आईईओ को अग्रणी सामाजिक विज्ञान अनुसंधान अथवा अन्य ज्ञान-संस्थानों की सेवाएं लेने, फ्लैगशिप कार्यक्रमों के प्रभाव का मूल्यांकन करने और इसे सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध कराने की अनुमति होगी।
- (iv) डीईएसी द्वारा समय-समय पर निर्धारित आईईओ की मूल्यांकन कार्यसूची के अंतर्गत, निम्नलिखित फ्लैगशिप कार्यक्रम आईईओ के कार्यक्षेत्र में रहेंगे, नामतः :--
  - (क) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (एमजीएनआरजीए);
  - (ख) सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए, सीएमटीएम ~~सर्व शिक्षा~~);
  - (ग) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम);
  - (घ) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम);
  - (ङ) एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस);
  - (च) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई);
  - (छ) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई);
  - (ज) इंदिरा आवास योजना (आईएवाई);
  - (झ) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी);
  - (ञ) जल एवं स्वच्छता मिशन नामतः राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन और समग्र स्वच्छता अभियान;

(ट) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना;

दिनांक 19 जुलाई 2011

(ठ) महत्वपूर्ण कौशल विकास कार्यक्रम;

(v) डीईएसो उपर्युक्त सूची में समय-समय पर परिवर्धन, विलोपन, परिवर्तन अथवा संशोधन कर सकेगी।

(vi) इसकी पूर्ण रूप से स्थापना हो जाने के बाद, आईईओ प्रत्येक वर्ष 3 से 5 विश्व स्तरीय रिपोर्टें तैयार करेगा।

(vii) आईईओ के निष्कर्षों को डीईएसो के समक्ष रखा जाएगा, जो कार्यान्वयन करने वाले मंत्रालय के साथ-साथ योजना आयोग की टिप्पणियां मंगवाएगी। योजना आयोग के उपाध्यक्ष द्वारा आईईओ की रिपोर्ट के साथ इन टिप्पणियों को प्रधान मंत्री कार्यालय भेजा जाएगा और इसकी एक प्रति संसद के पुस्तकालय में रखी जाएगी। रिपोर्ट के साथ-साथ इन टिप्पणियों को जनता के सूचनार्थ वेबसाइट पर भी रखा जाएगा।

(viii) मूल्यांकन संबंधी डेटा को सांकेतिक और युक्तिसंगत शुल्क पर छात्रों अथवा अनुसंधानकर्ताओं को उपलब्ध कराया जाएगा ताकि शैक्षिक संस्थानों और विचारकों द्वारा अनुसंधान को सुसाध्य बनाया जा सके।

(ix) आईईओ मूल्यांकन संबंधी उद्देश्यों के अनुरूप उचित प्रबंधन सूचना प्रणालियों का विकास करने में योजना आयोग और कार्यान्वयन करने वाले मंत्रालयों को सलाह भी देगा और कार्यान्वयन करने वाले ऐसे मंत्रालय का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसी प्रबंधन सूचना प्रणालियों की अभिकल्पना करने और इन्हें कार्यान्वित करने के लिए सभी युक्तिसंगत प्रयास करें।

4. आईईओ के कारण व्यय को योजना स्कीम के रूप में वहन किया जाएगा, जिसके लिए योजना आयोग के बजट अनुदान में बजट प्रावधान किया जाएगा।

5. आईईओ की स्थापना हो जाने के बाद योजना आयोग इसके कार्यालय स्थल की व्यवस्था करने में इसकी मदद करेगा और इसे योजना आयोग से पृथक भवन में स्थापित किया जाएगा।

एस. मुखर्जी, निदेशक (प्रशासन)

नई दिल्ली, दिनांक 7 जुलाई 2011

सं. एफ-6(2160)/2010-प्रशा.-I--आर्थिक मामले विभाग की फाइल सं. 13016/3/2011-आईईएस से जारी आदेश सं. टी-18/2011, दिनांक 23.06.2011 के अनुसरण में, श्री अमरजीत बंगा, आईईएस के एनएफएसजी अधिकारी, ने वेतन वर्ग-4 अर्थात् रु. 37,400--67,000/- + 8,700/- रु. ग्रेड वेतन में योजना आयोग में निदेशक के पद पर दिनांक 01.07.2011 (पूर्वाह्न) से कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

जी. राजीव, अवर सचिव

सं. एफ-6(1959)/2006-प्रशा.-I--सक्षम प्राधिकारी ने श्री एस. के. साहा, एसजी, आईआरएसईई, निदेशक, पीपीपी, रेलवे बोर्ड की राज्य मंत्री (योजना, संसदीय मामले, विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान) (डॉ. अश्वनी कुमार) के निजी सचिव के रूप में निदेशक स्तर पर नियुक्ति ("कूलिंग ऑफ" आवश्यकता में छूट देते हुए) को दिनांक 15 जुलाई, 2011 (अपराह्न) से 5 वर्षों की अवधि के लिए अथवा उनके मंत्री के निजी सचिव के रूप में कार्य करना बंद करने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, अनुमोदित कर दिया है, इसके साथ यह निदेश दिया गया है कि निजी सचिव के रूप में कार्यकाल पूरा होने पर अधिकारी को उनके संवर्ग में प्रत्यावर्तित कर दिया जाना चाहिए।

जी. राजीव, अवर सचिव

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 12 जुलाई 2011

सं. 12014/2/2009-आईएसएस--राष्ट्रपति, भारतीय सांख्यिकीय सेवा के निम्नलिखित परीक्षार्थियों (वर्ष 2006 में आयोजित हुई परीक्षा से सीधे भर्ती) को दिनांक 04.02.2010 से कनिष्ठ समय वेतनमान में मूल रूप से सहर्ष नियुक्त करते हैं :-

क्रम सं.	नाम
1	2
	(सर्वश्री)
1.	सुश्री नेहा श्रीवास्तव
2.	डॉ. जे. एस. तोमर
3.	उत्तम कुमार माझी
4.	सुश्री सौम्या पी. कुमार
5.	सुश्री श्रुति शुक्ल
6.	अक्षय कुमार पाणिग्रही
7.	सौरभ कुमार दुबे
8.	सुश्री माया एस.एस.
9.	सिरियक जार्ज
10.	कुमार सुन्दरम
11.	फखरे आलम
12.	शिवनाथ सिंह
13.	मुहम्मद यासिर एफ.
14.	संजय कुमार
15.	अमित वर्मा
16.	सुश्री नैशिता एन.ए.

1	2
	(सर्वश्री)
17.	सुश्री प्रसीजा पी.
18.	मुकेश
19.	मोनोजीत दास
20.	विश्वनाथ प्रताप सिंह
21.	अनिल फुलवारी

टी. एस. जवाहर, निदेशक

विधि एवं न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 26 जुलाई 2011

सं. ए-12026/12/2001-प्रशा.-I (वि.वि.) (ii)--राष्ट्रपति, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग में (अधीक्षक) विधि श्री आर.एस. जयकृष्णन को विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग के राजभाषा खंड में सहायक विधायी परामर्शी (मलयालम) के पद पर रुपए 15,600--39,100/- के वेतन बैंड + रुपए 6,600/- के ग्रेड वेतन में दिनांक 26 जुलाई, 2011 की पूर्वाह्न से छः माह की अवधि के लिए और अगले आदेशों तक, स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिए तदर्थ आधार पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. यह तदर्थ नियुक्ति श्री आर.एस. जयकृष्णन को सहायक विधायी परामर्शी (मलयालम) के ग्रेड में नियमित नियुक्ति के लिए न तो कोई दावा करने का अधिकार प्रदान करेगी और न ही उनके द्वारा प्रदत्त तदर्थ सेवाओं की गणना इस ग्रेड में वरिष्ठता के प्रयोजनार्थ अथवा अगले उच्चतर ग्रेड में उनकी प्रोन्नति के लिए की जाएगी।

एम. आर. बीर, निदेशक (प्रशासन)

सं. ए-12026/12/2001-प्रशा.-I (वि.वि.) (i)--राष्ट्रपति, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के आशुलिपिक ग्रेड 'ए' और 'बी' (आमेलित) में निजी सचिव श्री मोहम्मद हुसैन को विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग के राजभाषा खंड में सहायक विधायी परामर्शी (पंजाबी) के पद पर रुपए 15,600--39,100/- के वेतन बैंड + रुपए 6,600/- के ग्रेड वेतन में दिनांक 26 जुलाई, 2011 की पूर्वाह्न से छः माह की अवधि के लिए और अगले आदेशों तक, स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिए तदर्थ आधार पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. यह तदर्थ नियुक्ति श्री मोहम्मद हुसैन को सहायक विधायी परामर्शी (पंजाबी) के ग्रेड में नियमित नियुक्ति के लिए न तो कोई दावा करने का अधिकार प्रदान करेगी और न ही उनके द्वारा प्रदत्त तदर्थ सेवाओं की गणना इस ग्रेड में वरिष्ठता के प्रयोजनार्थ अथवा अगले उच्चतर ग्रेड में उनकी प्रोन्नति के लिए की जाएगी।

एम. आर. बीर, निदेशक (प्रशासन)

## विधि कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 20 जुलाई 2011

सं. ए-12034/1/2009-प्रशा.-IV (वि.का.) खंड-III--डॉ. एम. वीरप्पा मोइली द्वारा दिनांक 13.07.2011 को विधि और न्याय मंत्री के पद का कार्यभार छोड़ने के परिणामस्वरूप और कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 02.08.1979 के का.ज्ञा. सं. 10/20/97-सी.एस.-II में दिए गए अनुदेशों के अनुसार, भूतपूर्व विधि और न्याय मंत्री (डॉ. एम. वीरप्पा मोइली) के कार्यालय के निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 13.07.2011 से दिनांक 27.07.2011 तक की 15 दिन की समापन अवधि प्रदान की जाती है :--

नाम और पदनाम

- (i) श्री एस. टुङ्क्ली, अपर निजी सचिव।
- (ii) श्री ग्रेगरी रॉबर्ट, सहायक निजी सचिव।
- (iii) श्री छत्रपाल सूद, सहायक निजी सचिव।
- (iv) श्री जगदीश चन्द्र मनचंदा, प्रथम वैयक्तिक सहायक।

आशा सोटा, अवर सचिव

## गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-1, दिनांक 18 जुलाई 2011

सं. 14016/13/2011-यूटीएस-I--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 239 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री अमर नाथ, भारतीय प्रशासनिक सेवा (ए जी एम यू : 94) को दिनांक 11.07.2011 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप का प्रशासक नियुक्त करती हैं।

बलदेव राज, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 26 जुलाई 2011

सं. ए-43011/03/2011-प्रशा.-I--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के एक स्थायी ग्रेड-I (अवर सचिव) अधिकारी श्री डी. एन. कटारिया, जो कि 31.03.2007 को सेवानिवृत्त हो गए हैं का नाम केन्द्रीय सचिवालय सेवा के वर्ष 2005 के चयन ग्रेड में चयन सूची में शामिल होने पर गृह मंत्रालय में उप सचिव के रूप में कल्पित आधार पर नियुक्त करती हैं।

2. इस संबंध में, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 21.07.2011 के कार्यालय ज्ञापन सं. 9/1/2011-सी.एस.-I (डी) संदर्भित है।

3. नियुक्ति दिनांक 01.07.2005 से प्रभावी समझा जाएगा अर्थात् उस तिथि से जब उनके जूनियर पदोन्नत हुए थे।

जे. बी. शर्मा, अवर सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 29 जुलाई 2011

सं. I-18011/09/2011-आईपीएस-IV--राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का

प्रयोग करते हुए, भारतीय पुलिस सेवा के छत्तीसगढ़ संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नामों के सामने उल्लिखित तारीख से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करती हैं :--

क्र. सं.	परिवीक्षाधीन भा.पु.से. अधिकारी का नाम	स्थायी किए जाने की तारीख
	सर्वश्री	
1.	सुश्री नेहा, आईपीएस (छत्तीसगढ़ : 2004)	06.09.2006
2.	अभिषेक पाठक, आईपीएस (छत्तीसगढ़ : 2004)	06.09.2006
3.	बद्री नारायण मीणा, आईपीएस (छत्तीसगढ़ : 2004)	27.12.2006
4.	मिन्थुगों टुंगों, आईपीएस (छत्तीसगढ़ : 2006)	31.08.2008
5.	दीपक कुमार झा, आईपीएस (छत्तीसगढ़ : 2007)	18.08.2009
6.	अभिषेक शांडिल्य, आईपीएस (छत्तीसगढ़ : 2007)	10.12.2009
7.	राम गोपाल, आईपीएस (छत्तीसगढ़ : 2007)	10.12.2009
8.	जितेन्द्र सिंह मीणा, आईपीएस (छत्तीसगढ़ : 2007)	10.12.2009

राजेन्द्र कुमार, अनुभाग अधिकारी

सं. I-18011/12/2011-आई.पी.एस.- IV--राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय पुलिस सेवा के राजस्थान संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नामों के सामने उल्लिखित तारीख से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करती हैं :--

क्र. सं.	परिवीक्षाधीन भा.पु.से. अधिकारी का नाम	स्थायी किए जाने की तारीख
	सर्वश्री	
1.	चाल्के संतोष कुमार तुकाराम, आईपीएस (राजस्थान/2004)	06.09.2006
2.	गौरव श्रीवास्तव, आईपीएस (राजस्थान/2004)	06.09.2006
3.	ओम प्रकाश, आईपीएस (राजस्थान/2004)	06.09.2006
4.	शरत कविराज, आईपीएस (राजस्थान/2004)	06.09.2006
5.	एस. परिमल, आईपीएस (राजस्थान/2004)	27.12.2006

राजेन्द्र कुमार, अनुभाग अधिकारी

सं. I-18011/10/2011-आई.पी.एस.- IV--राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय पुलिस सेवा के कर्नाटक संवर्ग के निम्नलिखित

अधिकारियों को उनके नामों के सामने उल्लिखित तारीख से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करती हैं :--

क्र. सं.	परिवीक्षाधीन भा.पु.से. अधिकारी का नाम	स्थायी किए जाने की तारीख
1.	श्री चेतन सिंह राठौर, आईपीएस (कर्नाटक/2007)	10.12.2009
2.	श्री रवि कुमार वाई.एस., आईपीएस (कर्नाटक/2007)	10.12.2009
3.	श्री अमित सिंह, आईपीएस (कर्नाटक/2007)	10.12.2009

राजेन्द्र कुमार, अनुभाग अधिकारी

सं. I-18011/13/2011-आई.पी.एस.- IV--राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय पुलिस सेवा के उत्तर प्रदेश संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नामों के सामने उल्लिखित तारीख से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करती हैं :--

क्र. सं.	परिवीक्षाधीन भा.पु.से. अधिकारी का नाम	स्थायी किए जाने की तारीख
	सर्वश्री	
1.	सुभाष चन्द्र दूबे, आईपीएस (उत्तर प्रदेश/2005)	22.08.2007
2.	राम कृष्ण भारद्वाज, आईपीएस (उत्तर प्रदेश/2005)	22.08.2007
3.	दीपक कुमार, आईपीएस (उत्तर प्रदेश/2005)	22.08.2007
4.	अंकज शर्मा, आईपीएस (उत्तर प्रदेश/2005)	22.08.2007
5.	मंजिल सैनी, आईपीएस (उत्तर प्रदेश/2005)	22.08.2007
6.	अखिलेश कुमार, आईपीएस (उत्तर प्रदेश/2005)	22.08.2007
7.	जे. रविन्द्र गौड़, आईपीएस (उत्तर प्रदेश/2005)	22.08.2007
8.	उपेन्द्र कुमार अग्रवाल, आईपीएस (उत्तर प्रदेश/2005)	12.12.2007
9.	प्रेम कुमार गौतम, आईपीएस (उत्तर प्रदेश/2005)	12.12.2007
10.	आकाश कुलहारी, आईपीएस (उत्तर प्रदेश/2006)	18.12.2008
11.	अब्दुल हमीद, आईपीएस (उत्तर प्रदेश/2006)	18.12.2008
12.	धमेन्द्र सिंह, आईपीएस (उत्तर प्रदेश/2006)	29.08.2008
13.	हैप्पी गुप्तन, आईपीएस (उत्तर प्रदेश/2006)	29.08.2008
14.	एल. आर. कुमार, आईपीएस (उत्तर प्रदेश/2006)	29.08.2008
15.	मनोज कुमार, आईपीएस (उत्तर प्रदेश/2006)	18.12.2008
16.	शलभ माथुर, आईपीएस (उत्तर प्रदेश/2006)	18.12.2008

राजेन्द्र कुमार, अनुभाग अधिकारी

दिनांक 2 अगस्त 2011

सं. I-18011/11/2011-आई.पी.एस.- IV--राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय पुलिस सेवा के हरियाणा संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नामों के सामने उल्लिखित तारीख से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करती हैं :--

क्र. परिवीक्षाधीन भा.पु.से. सं. अधिकारी का नाम	स्थायी किए जाने की तारीख
1. श्री मनीष चौधरी, भा.पु.से. (हरियाणा/2005)	12.12.2007
2. श्री शशांक आनन्द, भा.पु.से. (हरियाणा/2006)	29.08.2008
3. श्री अश्विन, भा.पु.से. (हरियाणा/2006)	18.12.2008
4. श्री पंकज नैन, भा.पु.से. (हरियाणा/2007)	10.12.2009
5. श्री सिमरदीप सिंह, भा.पु.से. (हरियाणा/2007)	18.08.2009

राजेन्द्र कुमार, अनुभाग अधिकारी

राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय

नागपुर-440001, दिनांक 26 जुलाई 2011

सं. एफ.सी./05-10/2011-12--राष्ट्रपति, राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कालेज, नागपुर, महाराष्ट्र में सहायक के पद पर कार्यरत, श्री एच. जेड. गलबले को दिनांक 28.01.2011 (पूर्वाह्न) से पदोन्नति के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कालेज, नागपुर, महाराष्ट्र में रुपये 9,300--34,800/- + ग्रेड पे 4,600/- रुपये के वेतनमान में अगले आदेश होने तक स्थानापन्न आधार पर प्रशासनिक अधिकारी के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

शमीम, निदेशक

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 26 जुलाई 2011

सं. 23012/08/2010-अ.भा.से. (III)--वर्ष 2007 में आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के आधार पर भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त तथा महाराष्ट्र कैडर में रखी गई सुश्री रूबल गुप्ता, आईएएस (एम.एच. : 2008) को उन का नाम "रूबल गुप्ता" से बदल कर "रूबल प्रखर अग्रवाल" करने की अनुमति दी जाती है। तदनुसार उन्हें सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए श्रीमती रूबल प्रखर अग्रवाल के नाम से जाना जाएगा।

नवनीत मिश्रा, अवर सचिव

(पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 28 जुलाई 2011

सं. 19011/4/2007-प्रशासन-I--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर, इस विभाग में निदेशक, श्री के. एस. चिब्ब, दिनांक 31 जुलाई, 2011 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

एस. पी. कक्कड़, अवर सचिव

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 8 जुलाई 2011

सं. एए/3210/1/2006--राष्ट्रपति, डॉ. कर्ण सिंह को 19 अगस्त, 2011 से तीन वर्ष की अवधि के लिए भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद्, नई दिल्ली के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करती हैं।

इस कार्य के लिए डॉ. कर्ण सिंह को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होगा।

एल. टी. मौना, संयुक्त सचिव (समन्वय)

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 28 जुलाई 2011

सं. ए-19013/16/2006-प्रशा. 2--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 18.7.2011 के का.ज्ञा. सं. 1/1/2011-सीएस-II (ए) के अनुसरण में, आर्थिक कार्य विभाग में कार्यरत वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव श्रीमती जयंती श्रीनिवासन को 21.07.2011 के पूर्वाह्न से वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में वेतन बैंड-4 के रु. 37,400--67,000/- + 8,700/- रु. के ग्रेड वेतन में सीएसएसएस के प्रधान स्टाफ अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

अशोक कुमार, अवर सचिव

दिनांक 1 अगस्त 2011

सं. ए-12011/6/2011-प्रशा. II--राष्ट्रपति, वित्त संवर्ग के केन्द्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सेवा (सीएसएसएस) के निम्नांकित ग्रेड 'ग' आशुलिपिकों की वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में (9,300--34,800/- रु. + 4,800/- रु. ग्रेड वेतन के वेतन बैंड-2) आशुलिपिक ग्रेड 'क तथा ख' (सम्मिलित) (निजी सचिव के रूप में पदनामित) के ग्रेड में पूर्णतया तदर्थ आधार पर नियुक्ति को 31.12.2011 तक या नियमित अधिकारी उपलब्ध होने तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हों, आगे बढ़ाते हैं :--

1. श्री संजीव कुमार शर्मा
2. श्री विजय कुमार शर्मा
3. श्री मनु राम टुडु
4. श्री पी. नटराजन

5. श्री प्रमोद कुमा
6. श्री अतुल सक्सेना
7. श्रीमती विमल चानना
8. श्री धाना राम
9. श्री अभिजीत सेनगुप्ता
10. श्रीमती मल्लिका रवि शंकर
11. श्री श्रवण कुमार
12. श्री संतोष कुमार सागर
13. श्रीमती रमा देवी शर्मा
14. श्रीमती सीमा रानी अरोड़ा
15. श्रीमती रिता ओहरी

2. आशुलिपिक ग्रेड 'क तथा ख' (सम्मिलित) (निजी सचिव के रूप में पदनामित) के रूप में उपर्युक्त आशुलिपिक ग्रेड 'ग' की तदर्थ नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :--

- (क) इस नियुक्ति से इन अधिकारियों को इस ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल करने अथवा सीएसएसएस के ग्रेड 'क तथा ख' (सम्मिलित) (निजी सचिव) में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा;
- (ख) इन तदर्थ नियुक्तियों को किसी भी समय बिना कोई कारण बताए समाप्त किया जा सकता है।

अशोक कुमार, अवर सचिव

वित्तीय सेवाएं विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 20 जुलाई 2011

सं. 8/9/2009-डीआरटी--बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 8 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, न्यायमूर्ति आर. के. गुप्ता, अध्यक्ष, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, इलाहाबाद को तत्काल प्रभाव से, अगले आदेशों तक, अपने कार्यभार के अतिरिक्त, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, दिल्ली के अध्यक्ष के कार्यों का भी निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत करती है।

राजीव शर्मा, अवर सचिव

दिनांक 21 जुलाई 2011

सं. 15012/1/2008-डीआरटी--ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, मुम्बई के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अल्लाह रहम 65 वर्ष की आयु पूरी होने पर दिनांक 21 जुलाई, 2011 (अपराह्न) से अध्यक्ष, अपीलीय अधिकरण का पदभार छोड़ देंगे।

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 8 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, न्यायमूर्ति एस. पी. तालुकदार, अध्यक्ष, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, कोलकाता को तत्काल प्रभाव से, अगले आदेशों तक, अपने कार्यभार के अतिरिक्त, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, मुम्बई के अध्यक्ष के कार्यों का भी निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत करती है।

राजीव शर्मा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 25 जुलाई 2011

सं. ए-19011/267/2007-स्थापना (खण्ड)--राष्ट्रपति, श्री अचिन्तन भट्टाचार्य, निदेशक, केन्द्रीय सचिवालय सेवा को 22 जुलाई, 2011 के अपराह्न से केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम के अंतर्गत रखे जाने तक, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय में वरिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में संयुक्त सचिव (स्वस्थाने) के रूप में नियुक्त करती है।

विजय मल्होत्रा, अवर सचिव

व्यय विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 21 जुलाई 2011

सं. ए-32014/2/2011-प्रशा.-I--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड 'सी' के नियमित आशुलिपिक श्री जगतार सिंह को 9,300--34,800/- रुपए के वेतन बैंड-2 + 5,400/- रुपए ग्रेड वेतन में 01 जुलाई, 2011 से 31.12.2011 अथवा सीएसएसएस (निजी सचिव) के नियमित आशुलिपिक ग्रेड "ए" एवं "बी" (आमेमित) के उपलब्ध होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, को पूर्णतः तदर्थ आधार पर विनिवेश विभाग से उनके स्थानांतरण के आधार पर वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में आशुलिपिक ग्रेड "ए" एवं "बी" (आमेमित) (निजी सचिव के रूप में पदनामित) के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त अधिकारी की तदर्थ नियुक्ति उन्हें इस ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने अथवा सीएसएसएस(निजी सचिव) के ग्रेड 'ए' एवं 'बी' (आमेमित) की चयन सूची में शामिल होने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

मीताली घोष, अवर सचिव

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 19 जुलाई 2011

सं. पीएफजी(740)/2011-प्रशासन-II--दिनांक 07.07.2011 के कार्यालय आदेश सं. ए-22011/1/2011-प्रशासन-II वोल्यूम-I द्वारा स्थानांतरण के पश्चात् श्री ए.एम. शर्मा, भारतीय कारपोरेट विधि सेवा के कनिष्ठ समयमान अधिकारी ने कारपोरेट कार्य मंत्रालय के मुख्यालय (सीएल-VI) में दिनांक 08.07.2011 (अपराह्न) से सहायक निदेशक का पदभार ग्रहण कर लिया है।

आर. के. पांडे, अवर सचिव



दिनांक 21 जुलाई 2011

सं. पीएफजी(380)/79-प्रशासन-II--दिनांक 21.06.2011 के कार्यालय आदेश सं. ए-22011/1/2011-प्रशासन-II वोल्यूम-I द्वारा स्थानांतरण के पश्चात् भारतीय कारपोरेट विधि सेवा के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारी श्री ई. सेल्वरज ने दिनांक 01.07.2011 (पूर्वाह्न) से क्षेत्रीय निदेशक (दक्षिण पूर्व क्षेत्र), हैदराबाद का पदभार ग्रहण कर लिया है।

आर. के. पांडे, अवर सचिव

सं. पीएफजी(395)/80-प्रशासन-II--दिनांक 21.06.2011 के कार्यालय आदेश सं. ए-22011/1/2011-प्रशासन-II वोल्यूम-I द्वारा स्थानांतरण के पश्चात् भारतीय कारपोरेट विधि सेवा के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारी, श्री के. पाण्डियन ने दिनांक 14.07.2011 (पूर्वाह्न) से निदेशक, कारपोरेट कार्य महानिदेशक, कार्यालय (चेन्नई में स्थित) का पदभार ग्रहण कर लिया है।

आर. के. पांडे, अवर सचिव

दिनांक 27 जुलाई 2011

सं. ए-32011/6/2009-प्रशासन-II--राष्ट्रपति, निम्नलिखित वर्ग 'ख' अधिकारियों को प्रोन्नति पर उनके नाम के सामने लिखी तिथि से भारतीय कारपोरेट विधि सेवा के कनिष्ठ समयमान (वर्ग 'क') (पीबी-3, 15,600--39,100/- रु. + 5,400/- ग्रेड पे) के पद पर नियुक्त करते हैं:--

क्र. सं. अधिकारी का नाम	लागू होने की तारीख
श्री/श्रीमती/कुमारी	
1. सुरेन्द्र वाधवा	03.05.2011 (पूर्वाह्न)
2. अनुपम वशिष्ठ	16.05.2011 (अपराह्न)

आर. के. पांडे, अवर सचिव

दिनांक 29 जुलाई 2011

सं. पीएफजी(473)/89-प्रशासन-II--भारतीय कारपोरेट विधि सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारी श्री एम. ए. कुवाडिया ने दिनांक 21.06.2011 के कार्यालय आदेश सं. ए-22011/1/2011-प्रशासन-II खण्ड-I द्वारा अपना स्थानांतरण के परिणामस्वरूप प्रादेशिक निदेशक (दक्षिण क्षेत्र) के कार्यों का निर्वाह करने के साथ-साथ दिनांक 14.07.2011 (पूर्वाह्न) से प्रादेशिक निदेशक कार्यालय, चेन्नई (दक्षिण क्षेत्र) में संयुक्त निदेशक के पद का पदभार संभाल लिया है।

आर. के. पांडे, अवर सचिव

सं. पीएफजी(493)/90-प्रशासन-II--भारतीय कारपोरेट विधि सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारी श्री के. एल. कम्बोज ने दिनांक 11.07.2011 के कार्यालय आदेश सं. ए-22011/1/2011-प्रशासन-II द्वारा अपना स्थानांतरण होने के परिणामस्वरूप प्रादेशिक निदेशक (उत्तर

पश्चिम क्षेत्र) के कार्यों का निर्वाह करने के साथ-साथ दिनांक 12.07.2011 (अपराह्न) से प्रादेशिक निदेशक कार्यालय, अहमदाबाद (उत्तर पश्चिम क्षेत्र) में संयुक्त निदेशक के पद का कार्यभार संभाल लिया है।

आर. के. पांडे, अवर सचिव

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग

नई दिल्ली-110107, दिनांक 21 जुलाई 2011

सं. ए-32019/1/2001-स्थापना-I--राष्ट्रपति औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग एवं भारी उद्योग विभाग के निम्नलिखित तकनीकी अधिकारियों को प्रत्येक के नाम के सामने दिए गए पद और अवधि के लिए तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं:--

क्र. सं.	नाम और ग्रहण किया गया मूल पद	ग्रहण किया गया तदर्थ पद, प्रारम्भिक नियुक्ति की तिथि के साथ	तदर्थ नियुक्ति का विस्तार से	नियुक्ति की अवधि तक
1	2	3	4	5
सर्वश्री				
1.	सुशील लाकरा विकास अधिकारी (इंजीनियरिंग)	औद्योगिक सलाहकार (इंजीनियरिंग) 04.11.2008	01.07.2011	31.12.2011
2.	के.के. सिन्हा विकास अधिकारी (इंजीनियरिंग)	औद्योगिक सलाहकार (इंजीनियरिंग) 01.12.2010	01.12.2011	--
3.	बी.के. मिश्रा विकास अधिकारी (इंजीनियरिंग)	अपर औद्योगिक सलाहकार (इंजीनियरिंग) 12.02.2009	01.07.2011	--
4.	डॉ. आशीष कुमार सहा. विकास अधिकारी (इंजीनियरिंग)	वरिष्ठ विकास अधिकारी (इंजीनियरिंग) 10.08.2010	10.08.2011	--
5.	गजराज सिंह सहा. विकास अधिकारी (इंजीनियरिंग)	वरिष्ठ विकास अधिकारी (इंजीनियरिंग) 01.08.2005	01.07.2011	--
6.	एन.एल. गोस्वामी सहा. विकास अधिकारी (इंजीनियरिंग)	वरिष्ठ विकास अधिकारी (इंजीनियरिंग) 17.07.2007	--	--
7.	मो. जकारिया खान युसुफजई सहा. विकास अधिकारी (इंजीनियरिंग)	वरिष्ठ विकास अधिकारी (इंजीनियरिंग) 01.08.2007	--	--
8.	ए.पी. सिंह सहा. विकास अधिकारी (इंजीनियरिंग)	वरिष्ठ विकास अधिकारी (इंजीनियरिंग) 01.09.2007	--	--
9.	एस.एस. बोस सहा. विकास अधिकारी (कैम.)	वरिष्ठ विकास अधिकारी (कैम.) 01.08.2007	--	--

1	2	3	4	5
10. ए.एम. बलराज	वरिष्ठ विकास अधिकारी	01.07.2011	31.12.2011	
सहा. विकास अधिकारी (इंजीनियरिंग)	(इंजीनियरिंग)	01.08.2008		
11. डा. एस.एस. गुप्ता	वरिष्ठ विकास अधिकारी	--	--	
सहा. विकास अधिकारी (इंजीनियरिंग)	(इंजीनियरिंग)	01.09.2009		
12. एस.के. जैन-III	विकास अधिकारी	--	--	
सहा. विकास अधिकारी (इंजीनियरिंग)	(इंजीनियरिंग)	01.10.2003		
13. बी.सी. नायक	विकास अधिकारी	--	--	
सहा. विकास अधिकारी (इंजीनियरिंग)	(इंजीनियरिंग)	01.09.2004		
14. आर.के. जायसवाल	विकास अधिकारी	--	--	
सहा. विकास अधिकारी (इंजीनियरिंग)	(इंजीनियरिंग)	12.08.2004		
15. संदीप चौहान	विकास अधिकारी	--	--	
सहा. विकास अधिकारी (इंजीनियरिंग)	(इंजीनियरिंग)	01.03.2005		

2. उपरोक्त नियुक्तियों का आदेश पूर्णतः तदर्थ आधार पर दिया गया है और यह अधिकारियों को अनिश्चितकाल तक पद पर बने रहने, अथवा ग्रेड में वरिष्ठता के लिए अथवा उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति आदि के लिए कोई अधिकार नहीं देता है। संबंधित अधिकारियों को कोई कारण बताए बिना अथवा नोटिस आदि दिए बिना तदर्थ नियुक्ति समाप्त करने का अधिकार सरकार के पास सुरक्षित है।

एल.के. शर्मा, अवर सचिव

सं. ए-12023/01/2010-ई-I--राष्ट्रपति औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में नयाचार अधिकारी के रूप में श्री विकास कुमार अग्रवाल को दिनांक 17.08.2011 से 16.02.2012 तक और छः माह की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

एल.के. शर्मा, अवर सचिव

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

औषध विभाग

राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण

नई दिल्ली-110001, दिनांक 25 जुलाई 2011

सं. ए-12011/01/2011-स्थापना(एनपीपीए)--अधिवार्षिकी आयु प्राप्त होने के परिणामस्वरूप श्री ए. बालाकृष्णन, वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव दिनांक 30.06.2011 की अपराह्न को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हुए।

शिव नारायण, निदेशक (प्रशासन)

खान मंत्रालय

नई दिल्ली, 19 जुलाई 2011

सं. 3/7/2006-स्था.--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 11 फरवरी, 2011 के आदेश सं. 6/9/2010-सीएस I(एस) के अनुसरण में राष्ट्रपति, कोयला मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के सहायक श्री कुमार अमरेन्द्र को 01.07.2011 की अपराह्न से अगले आदेश होने तक खान मंत्रालय में तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी नियुक्त करते हैं।

नीता गुप्ता, अवर सचिव

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

नई दिल्ली-110049, दिनांक 08 जुलाई 2011

सं. ए-19011/05/2008-प्रशा.--केन्द्रीय सचिवालय सेवा वरिष्ठ चयन ग्रेड (निदेशक) वर्ष 2011 की चयन सूची में उनका नाम सम्मिलित किए जाने के परिणामस्वरूप, श्रीमती रूपाली बैनर्जी सिंह, उपसचिव को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 01.07.2011 के का.ज्ञा. सं. 3/2/2011-सीएस-I(डी) के अनुसार निदेशक के रूप में नियमित आधार पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत किया गया है।

श्रीमती रूपाली बैनर्जी सिंह ने 01.07.2011 से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में निदेशक का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

संजय बाजपेयी, अवर सचिव

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली, 29 जुलाई 2011

सं. ए-12011/5/2007-स्था.--उपभोक्ता मामले विभाग में, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन और अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 की धारा 3 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि श्री रमेश अभिषेक, भारतीय प्रशासनिक सेवा (बीएच : 82) सदस्य, वायदा बाजार आयोग, अपने वर्तमान कार्यों के अलावा वायदा बाजार आयोग के अध्यक्ष के पद का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे, जो कि 01 अगस्त, 2011 से अगले आदेशों तक अथवा नियमित अध्यक्ष के पदभार ग्रहण करने तक, जो भी पहले हो, से प्रभावी होगा।

ओम प्रकाश, उप सचिव

सं. ए-12011/5/2007-स्था.--श्री बी.सी. खटुवा, भा.प्र.से. (एमएच : 76) अध्यक्ष, वायदा बाजार आयोग, मंबई संविदा के आधार पर एक वर्ष की पुनर्नियुक्ति अवधि के पूर्ण होने के परिणामस्वरूप, 31 जुलाई, 2011 अपराह्न से अध्यक्ष के पदभार को छोड़ देंगे।

ओम प्रकाश, उप सचिव

## खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 20 जुलाई 2011

सं. ए-12022/1/2009-स्था.1--राष्ट्रपति, 2011 वर्ष के लिए केन्द्रीय सचिवालय सेवा की वरिष्ठ चयन ग्रेड (निदेशक) चयन सूची में श्री भगवान सिंह, उप सचिव का नाम शामिल होने के परिणामस्वरूप उन्हें 01 जुलाई, 2011 के पूर्वाह्न से अगले आदेश होने तक, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में (पे बैंड-4) 37,400--67,000/- रु. + 8,700/- रु. के ग्रेड वेतन में निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

बी.एस.ए. पदमानाभा, उप सचिव

सं. ए-12022/1/2009-स्था.--राष्ट्रपति, 2011 वर्ष के लिए केन्द्रीय सचिवालय सेवा की वरिष्ठ चयन ग्रेड (निदेशक) चयन सूची में श्री एम. जयारामन, उप सचिव का नाम शामिल होने के परिणामस्वरूप उन्हें 01 जुलाई, 2011 के पूर्वाह्न से अगले आदेश होने तक, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में (पे बैंड-4) 37,400--67,000/- रु. + 8,700/- रु. के ग्रेड वेतन में निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

बी.एस.ए. पदमानाभा, उप सचिव

## विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110016, दिनांक 06 मई 2011

सं. ए. 11013/01/2011-प्रशासन-I (ए)--राष्ट्रपति, द्वारा श्री जगदीप गोयल (आईआरएस-1989) को निदेशक के स्तर पर 37,400--67,000/- रु. के वेतन बैंड + 8,700/- रु. के ग्रेड वेतन (वेतन बैंड-4) में माननीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री श्री पवन कुमार बंसल के वैयक्तिक स्टाफ में विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) के पद पर 'पार्श्व पारी आधार' (लैटरल शिफ्ट बेसिस) पर दिनांक 20.01.2011 (पूर्वाह्न) से और पांच वर्षों की उनकी स्वीकार्य अवधि की शेष अवधि तक अर्थात् दिनांक 05.07.2014 तक अथवा मंत्री महोदय के साथ को-टर्मिनस आधार पर अथवा मंत्री महोदय के विशेष कार्य अधिकारी के रूप में कार्य समापन तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियुक्त किया जाता है।

2. वे सामान्य नियमों के अन्तर्गत अपने अधिकार के अनुसार अपने संबंधित ग्रेड में वेतन आदि का आहरण करेंगे।

लता गोपाकुमार, अवर सचिव

दिनांक 14 जुलाई 2011

सं. ए-12023/02/07-प्रशासन-I(ए)--इस विभाग के दिनांक 24.02.2011 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 01.07.2011 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/8/2006-सी एस II के अनुसरण में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग में आशुलिपिक ग्रेड 'ए एवं

बी' (विलयित) (निजी सचिव) के पद पर निम्नलिखित नियमित वैयक्तिक सहायकों की तदर्थ नियुक्ति की कार्य अवधि 31.12.2011 तक की आगामी अवधि के लिए अथवा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के नियमित निजी सचिव उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाई जाती है :-

सर्वश्री/श्रीमती

1. एमिली सिंह, डीबीटी
2. गीता मल्होत्रा, डीबीटी
3. रश्मि हुसैन
4. एलिजाबेथ चंदेकर
5. बिशन लाल
6. जगदीश चन्द

2. यह तदर्थ नियुक्ति, नियुक्त व्यक्तियों को इस ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने के लिए अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल होने के लिए अथवा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड 'ए एवं बी' (विलयित) (निजी सचिव) में वरिष्ठता का दावा करने के लिए अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

लता गोपाकुमार, अवर सचिव

## पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 03 मई 2011

सं. 32012/6/2010-आईएफएस.I(एजीएमयूटी)--भारतीय वन सेवा (प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1966 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) के साथ पठित भारतीय वन सेवा (भर्ती) विनियम, 1966 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, श्री टी.सी. नौटियाल (जन्म तिथि 28.02.1965), जोकि संघ शासित प्रदेश खण्ड राज्य वन सेवा के अंडमान एवं निकोबार उप-खण्ड के अधिकारी हैं, को वर्ष 2009 की चयन सूची के अनुसार संयुक्त एजीएमयूटी संवर्ग की भारतीय वन सेवा में तत्काल प्रभाव से सहर्ष नियुक्त करते हैं और उन्हें भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियम, 1966 के नियम 5 के उप-नियम (1) के अंतर्गत संयुक्त एजीएमयूटी (संघ शासित प्रदेश खण्ड का अंडमान एवं निकोबार उप-खण्ड) संवर्ग की भारतीय वन सेवा आबंटित करते हैं।

जोसेफ लुईखम, अवर सचिव

नई दिल्ली-110003, दिनांक 19 जुलाई 2011

सं. ए-12012/9/2005-पी.II(.)--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 16 मार्च, 2011 के का.ज्ञा. सं. 5/27/2010-सीएस.II(क) के अनुसरण में राष्ट्रपति, श्री नरेश कुमार (सीएसएल सं. 529), जो कि उर्वरक विभाग में नियमित आशुलिपिक ग्रेड 'ग' हैं, को दिनांक 22 जून, 2011 (पूर्वाह्न) से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में 4,800/- रु. के ग्रेड

वेतन सहित वेतन बैंड-2 (9,300--34,800/-) में वरिष्ठता कोट में जोनिंग स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2009 की चयन सूची के अनुसार के.से. आ.से. के आशुलिपिक ग्रेड 'क और ख' (विलीन) के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एम.एल. वाधवानी, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली-110108, दिनांक 25 जुलाई 2011

सं. ए-12025/23/2011-सी.एच.एस.-III--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. संजय पंडित को दिनांक 15.04.2011 के पूर्वाह्न से और आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापन विशेषज्ञ उप संवर्ग में काय चिकित्सा की विशिष्टता में सहायक आचार्य के पद पर परीक्षा पर नियुक्त करते हैं।

ललित कुमार, अवर सचिव

-----  
दिनांक 26 जुलाई 2011

सं. ए-31013/1/2011-सी.एच.एस.-V--राष्ट्रपति, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के शिक्षण उप-संवर्ग के निम्नलिखित सहायक/सह-आचार्यों (प्रोफेसर) को उनके नाम के आगे उल्लिखित तारीखों से स्थायी रूप में नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	नियुक्ति की तारीख	स्थायीकरण की तारीख
1	2	3	4
1.	डॉ. अर्निबन होम चौधरी	06.06.2008	06.06.2009
2.	डॉ. गिरीश एम. पी.	01.01.2010	01.01.2011
3.	डॉ. मोहित दयाल गुप्ता	01.01.2010	01.01.2011
4.	डॉ. विट्ठल कुमार मालिसी बिदेगिरी	11.01.2008	11.01.2009
5.	डॉ. मुक्ता रानी	15.11.2007	15.11.2008
6.	डॉ. गुरुआरीबम सुनील कुमार शर्मा	26.05.2007	26.05.2008
7.	डॉ. सरबाना कुमार नाइक	15.05.2007	15.05.2008
8.	डॉ. मनीष कामत	11.11.2008	11.11.2009
9.	डॉ. सुनील	30.09.2008	30.09.2009
10.	डॉ. चितरंजन बेहेरा	22.10.2008	22.10.2009
11.	डॉ. हृदयहुलास नाग	06.03.2009	06.03.2010
12.	डॉ. संदीप सिंह सलूजा	01.05.2009	01.05.2010

1	2	3	4
13.	डॉ. पी. के. मिश्रा	02.09.2003	02.09.2004
14.	डॉ. भूपेन्द्र कुमार बजाज	05.09.2007	05.06.2009
15.	डॉ. अजय चौधरी	16.10.2007	16.10.2008
16.	डॉ. धनदापानी शिवाषणमुगम (दिनांक 30.06.2011 को सेवा से त्यागपत्र दे दिया)	26.11.2009	26.11.2010
17.	डॉ. एस. भास्कर	19.08.2009	19.08.2010
18.	डॉ. संजय के. राजन	19.10.2009	19.10.2010
19.	डॉ. रचना अग्रवाल	26.06.2008	26.06.2009
20.	डॉ. हर्षा शैलेश गायकवाड़	15.05.2008	15.05.2009
21.	डॉ. हरिन्द्र सिंह सेठी	01.01.2009	01.01.2010
22.	डॉ. नीलम राय	29.10.2007	29.10.2008
23.	डॉ. राजेश कुमार	25.06.2007	25.06.2008
24.	डॉ. अनीता वर्मा	31.12.2007	31.12.2008
25.	डॉ. अभिजीत साहा	23.02.2009	23.02.2010
26.	डॉ. शोभा शर्मा	02.03.2009	02.03.2010
27.	डॉ. शिल्पा शर्मा	31.03.2008	25.09.2009
28.	डॉ. सिम्मी के. रतन	03.10.2007	03.10.2008
29.	डॉ. देवेन्द्र कुमार यादव	10.01.2009	10.01.2010
30.	डॉ. संदीप कुमार सिन्हा	13.10.2009	13.10.2010
31.	डॉ. दिगंत बोरा	19.08.2009	19.08.2010
32.	डॉ. उपेन्द्र कुमार शर्मा	15.04.2008	15.04.2009
33.	डॉ. राकेश कुमार केन	10.12.2009	10.12.2010
34.	डॉ. दुर्गा कार्की	05.10.2009	05.10.2010
35.	डॉ. सुनील शर्मा	23.11.2009	23.11.2010
36.	डॉ. रोहिणी गुप्ता	10.11.2008	10.11.2009
37.	डॉ. सुशांत नेगी	14.03.2008	14.03.2009
38.	डॉ. पवन लाल	20.08.2008	20.08.2009
39.	डॉ. नैन्य सिंह	07.01.2009	07.01.2010
40.	डॉ. अशोक कुमार सिंह	12.08.2008	12.08.2009
41.	डॉ. निखिल खट्टर	23.12.2008	23.12.2009

ललित कुमार, अवर सचिव

दिनांक 29 जुलाई 2011

सं. ए-12025/08/11/सीएचएस-III--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. दीपक गुलियानी को दिनांक 28.02.2011 के पूर्वाह्न से और आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापन विशेषज्ञ उप संवर्ग में शल्य विज्ञान की विशिष्टता में सहायक आचार्य के पद पर परीक्षा पर नियुक्त करते हैं।

ललित कुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 7 जुलाई 2011

सं. ए-19013/06/2011-स्थापना-I--सुश्री प्रीति पंत, चयन ग्रेड (उप सचिव) का नाम वर्ष 2011 संबंधी सीएसएस वरिष्ठ चयन ग्रेड (निदेशक) चयन सूची में शामिल होने के परिणामस्वरूप तथा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 01.07.2011 के कार्यालय आदेश सं. 3/2/2011-सी एस-I(डी) के अनुसरण में, उन्हें दिनांक 01.07.2011 (पूर्वाह्न) से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में नियमित आधार पर सीएसएस के वरिष्ठ चयन ग्रेड (निदेशक) के पद पर एतद्वारा नियुक्त किया जाता है।

अनिल कुमार, अवर सचिव

दिनांक 1 अगस्त 2011

सं. ए-38016/12/2010-स्थापना-III--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधिकारी श्री राम सहाय मीणा 'कल्कि' संपादक (हिन्दी) 31.07.2011 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

अनिल कुमार, अवर सचिव

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 जुलाई 2011

सं. ए-32012/01/2007-प्रशा.-I--संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति, श्री एफ. सी. लूथरा, सहायक वास्तुविद, केन्द्रीय डिज़ाइन ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय को पदोन्नति आधार पर उप वास्तुविद, केन्द्रीय डिज़ाइन ब्यूरो (समूह 'क' पद, पी बी-3, रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड पे 5,400/-) के पद पर उनकी कार्यभार ग्रहण करने की तारीख अर्थात् दिनांक 07.06.2011 से नियुक्त करते हैं।

आर. के. कालड़ा, उप निदेशक प्रशासन

कृषि मंत्रालय

कृषि एवं सहकारिता विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 18 जुलाई 2011

सं. ए-19012/6/2011-आ.प्र.-I--राष्ट्रपति, भारतीय आर्थिक सेवा (आईईएस) के एक वरिष्ठ प्रशासनिक स्तरीय अधिकारी श्री आर. पी.

भागरिया को 01 जुलाई, 2011 के पूर्वाह्न से पीबी-4, रुपए 37,400--67,000/- + रु. 10,000/- ग्रेड पे के वेतनमान में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि एवं सहकारिता विभाग में सलाहकार के पद पर नियुक्त करते हैं।

ए. के. अरोड़ा, अवर सचिव

ग्रामीण विकास मंत्रालय

नई दिल्ली-110114, दिनांक 29 जुलाई 2011

सं. ए-32013/01/2010-स्थापना-II--राष्ट्रपति, श्रीमती मधु कपूर को ग्रामीण विकास मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सीएसएसएस) संवर्ग में, दिनांक 09.07.2011 (पूर्वाह्न) से पे-बैंड-3, 15,600--39,100/- रुपए + ग्रेड पे 6,600/- रुपए में तदर्थ (Ad-hoc) आधार पर प्रधान निजी सचिव के पद पर नियुक्त करती हैं।

जॉर्ज वाई, अवर सचिव

भूमि संसाधन विभाग

नई दिल्ली-110011, दिनांक 25 जुलाई 2011

सं. ए-19013/3/2009-प्रशासन--राष्ट्रपति, श्री सुरेंद्र कुमार, आई. एफ.एस. (केरल : 1986) को दिनांक 05 जुलाई, 2011 (पूर्वाह्न) से एक वर्ष, 10 माह और 22 दिन की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, भूमि संसाधन विभाग में 37,400--67,000/- रुपए (पीबी : 4) के वेतन बैंड तथा 10,000/- रुपए के ग्रेड वेतन में प्रतिनियुक्त के आधार पर संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

अनूप कुमार, अवर सचिव

सं. ए-19011/1/2011-प्रशासन--राष्ट्रपति, श्री प्रभुदयाल मीना, आई. ए.एस. (मध्य प्रदेश : 80) को दिनांक 11 जुलाई, 2011 के अपराह्न से भूमि संसाधन विभाग में अपर सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

अनूप कुमार, अवर सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 5 जुलाई 2011

सं. ए-15-2576/2011-स्थापना-I--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 01 जुलाई, 2011 के आदेश सं. 3/2/2011-सी.एस.-I (डी) के जरिए वर्ष 2011 की सीएसएस वरिष्ठ चयन ग्रेड (निदेशक) की चयन सूची में उनका नाम शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति डॉ. मीनाक्षी जॉली, उपसचिव (चयन ग्रेड) को 04.07.2011 (पूर्वाह्न) से मानव संसाधन विकास मंत्रालय में नियमित आधार पर निदेशक (वरिष्ठ चयन ग्रेड) के रूप में नियुक्त करती हैं।

संजय गुप्ता, अवर सचिव

## महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 24 जून 2011

सं. 21-01/2011-प्रशा.--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 29 मार्च, 2011 के कार्यालय ज्ञापन सं. 3/1/2011-सी.एस.-II (ए) के द्वारा प्रधान निजी सचिव के पद पर तदर्थ आधार पर पदोन्नत किए जाने पर और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में नामित किए जाने पर राष्ट्रपति सीएसएसएस की नियमित निजी सचिव श्रीमती रूपा शर्मा को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में तदर्थ आधार पर प्रधान निजी सचिव [पे बैंड-3, 15,600--39,100/- + 6,600/- (ग्रेड पे)] पर दिनांक 07.06.2011 (पूर्वाह्न) से नियुक्त करते हैं।

नवीन यादव, अवर सचिव

दिनांक 28 जून 2011

सं. 05-02/2011-प्रशा.--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 26 अप्रैल, 2011 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/25/2010-सी.एस.-II (ए) के अनुसार, आशुलिपिक ग्रेड 'क' और 'ख' (आमेलित) पद पर नियुक्ति के लिए श्रीमती राजेश्वरी कुमार का नामांकन किए जाने तथा सीएसएसएस की वर्ष 2008 की चयन सूची में उनका नाम शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति उन्हें दिनांक 16 जून, 2011 के पूर्वाह्न से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सीएसएसएस कैंडर में आशुलिपिक ग्रेड 'क' और 'ख' (आमेलित) के पद पर नियुक्त करते हैं।

नवीन यादव, अवर सचिव

## संस्कृति मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 11 जुलाई 2011

सं. ए-19011/10/2011-स्था. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (स्थापना अधिकारी का कार्यालय) के दिनांक 13 जून, 2011 के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/9/2011-ई.ओ. (एमएम-1) के अनुसरण में, श्री दीपक आशीष कौल, भारतीय डाक एवं तार लेखा तथा वित्त सेवा (95), ने पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, दिनांक 08 जुलाई, 2011 (पूर्वाह्न) से संस्कृति मंत्रालय में निदेशक का पदभार ग्रहण कर लिया है।

वनिता सूद, अवर सचिव

## सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

दिनांक 25 जुलाई 2011

सं. ए-32014/01/2008-स्था. II--कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा. सं. 4/2/2011-के.से. II (क) दिनांक 31.3.2011 के अनुसरण में, राष्ट्रपति इस मंत्रालय में निम्नलिखित स्थायी वैयक्तिक सहायकों को, ग्रेड वेतन 4,800/- रुपए पर वेतन बैंड-2 (9,300--34,800/- रुपए) में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में ग्रेड "क" और "ख" (विलयित) (निजी सचिव) (समूह ख, राजपत्रित, मंत्रालयीन) के पद पर, 15 जुलाई, 2011 के पूर्वाह्न से 30.9.2011 तक अथवा नियमित

निजी सचिवों के सचिवों के उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं :-

## क्र. सं. अधिकारियों का नाम

1. श्री एल. मुतुकृष्णन
2. श्रीमती कविता संधू
3. श्री आर. सी. कपूर
4. श्री कुलविन्दर सिंह
5. श्री डी. पवन कुमार
6. श्री नीतेश भसीन
7. श्रीमती योगिता आनंद
8. श्रीमती विभूति पंजियार
9. श्री सुरेन्द्र पाल

2. तदर्थ नियुक्ति पर नियुक्त व्यक्तियों को निजी सचिव के ग्रेड में बने रहने अथवा नियमित पदोन्नति के लिए चयन सूची में शामिल किए जाने अथवा निजी सचिव के ग्रेड में किसी वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा और किसी भी समय कोई कारण बताए बिना उनकी तदर्थ नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।

विनोद कुमार शर्मा, अवर सचिव

## जनजातीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 19 जुलाई 2011

सं. 11019/1/2005-स्थापना--राष्ट्रपति, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं. 12015/1/2011-आईएसएस, दिनांक 27.7.2011 के अनुसरण में श्री सौरभ कुमार दुबे का जनजातीय कार्य मंत्राल में 29.6.2011 के पूर्वाह्न से सहायक निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

एन. रामाकृष्णन, अवर सचिव

## अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 31 जुलाई 2011

सं. ए-38012/2/2011-स्था.--राष्ट्रपति, श्री विवेक मेहरोत्रा, आईएसएस (हरियाणा : 74), सचिव अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को वार्धक्य वय प्राप्त कर लेने पर 31.7.2011 को सेवा निवृत्त करते हैं।

लुकास एल. कामसुआन, उप सचिव

सं. ए-38013/5/2011-स्था.--राष्ट्रपति, श्रीमती नीलम भनोट, अनुभाग अधिकारी को वार्धक्यवय प्राप्त कर लेने पर 31.7.2011 को सेवा निवृत्त करते हैं।

लुकास एल. कामसुआन, उप सचिव

## संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 29 जुलाई 2011

सं. पीएफ/141/एनआईसी/2011-प्रशा. I--श्री ए. श्रीधर शास्त्री, वैज्ञानिक "जी" (उप महानिदेशक) (कर्मचारी कोड सं. 141) राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र मुख्यालय, नई दिल्ली से सरकारी सेवा से अधिवर्षिता पर दिनांक 31 जुलाई, 2011 की अपराह्न से सेवानिवृत्त हो रहे हैं और उन्हें उसी दिन से सेवा से कार्यमुक्त किया जाता है।

आर. एम. नायर, संयुक्त निदेशक (प्रशा. I)

सं. पीएफ/3256/एनआईसी/2011-प्रशासन-I--राष्ट्रपति, एतद्वारा श्री शैलेन्द्र कुमार त्यागी, कर्मचारी कोड सं. 3256 का राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, नई दिल्ली से वैज्ञानिक "डी" के पद से दिनांक 29.07.2011 की अपराह्न से एसटीपीआई (डीआईटी) में नियुक्ति लेने हेतु तकनीकी त्याग-पत्र स्वीकार करते हैं और उन्हें उसी दिन से ड्यूटी से कार्यमुक्त किया जाता है। श्री शैलेन्द्र कुमार त्यागी को एतद्वारा निदेश दिया जाता है कि वे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, एसटीपीआई, इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन, 6 सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली को तत्काल रिपोर्ट करें।

आर. एम. नायर, संयुक्त निदेशक (प्रशा. I)

सं. पीएफ/3513/एनआईसी/2011-प्रशासन-I--राष्ट्रपति, एतद्वारा श्री संजय कुमार गुप्ता, कर्मचारी कोड सं. 3513 का राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, नई दिल्ली से वैज्ञानिक "डी" के पद से दिनांक 29.07.2011 की अपराह्न से एसटीपीआई (डीआईटी) में नियुक्ति लेने हेतु तकनीकी त्याग-पत्र स्वीकार करते हैं और उन्हें उसी दिन से ड्यूटी से कार्यमुक्त किया जाता है। श्री संजय कुमार गुप्ता को एतद्वारा निदेश दिया जाता है कि वे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, एसटीपीआई, इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन, 6 सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली को तत्काल रिपोर्ट करें।

आर. एम. नायर, संयुक्त निदेशक (प्रशा. I)

डाक विभाग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 18 जुलाई 2011

सं. 1-1/2010-प्रशासन--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 01.07.2011 के कार्यालय आदेश सं. 3/2/2011-सीएस-I (डी) के अनुसरण में, राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित चयन ग्रेड (उप सचिव) अधिकारियों को कार्मिक एवं प्रशिक्षण के का.ज्ञा. सं. 3/3/2011-सीएस-I (डी) दिनांक 20 जून, 2011 के तहत सूची के लिए सीएसएस के वरिष्ठ चयन ग्रेड (निदेशक) में उनको सम्मिलित किए जाने के फलस्वरूप सीएसएस के वरिष्ठ चयन ग्रेड (निदेशकों) के तौर पर डाक विभाग में 37,400--67,000/- रु.

+ 8,700/- रु. (ग्रेड वेतन) के बैंड पीबी-4 में दिनांक 01.07.2011 से नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	नाम
1.	श्री आर. बी. चावला (सीएसएल 4168)
2.	श्री एस. के. त्रिपाठी (सीएसएल 3447)

हरीश पोखरियाल, सहायक महानिदेशक (प्रशासन)

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 25 जुलाई 2011

सं. ई(जी.पी.) 2007/3/2--राष्ट्रपति महोदय, भारतीय रेलवे के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के निम्नलिखित ग्रुप-बी अधिकारी को उल्लिखित रेलवे पर दिनांक 21.04.2009 से भारतीय रेल सिविल इंजीनियरिंग सेवा (आईआरएसई) के ग्रुप-ए कनिष्ठ वेतनमान में सहर्ष नियुक्त करते हैं :--

2008-09 के लिए पैल

उत्तर पश्चिम रेलवे

श्री ए. के. सक्सेना\*

\*श्री ए. के. सक्सेना 01.07.2011 से ही कनिष्ठ वेतनमान में वित्तीय लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे।

वी. के. गुप्ता, सचिव  
(रेलवे बोर्ड)

दिनांक 29 जुलाई 2011

सं. ईआरबी-I/2011/2/33--राष्ट्रपति जी, श्री विनय मित्तल, भारतीय रेल यातायात सेवा, महाप्रबंधक, दक्षिण पूर्व रेलवे को 30.06.2011 के अपराह्न से अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड एवं भारत सरकार के पदेन प्रमुख सचिव के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

विजय कुमार गुप्ता, सचिव  
(रेलवे बोर्ड)

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 22 जुलाई 2011

सं. 1/2011 फाईल संख्या 25/2(23)/2009-स्थापना-I--संयुक्त इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा-2008 (आरक्षित सूची), के परिणामों के आधार पर राष्ट्रपति ने श्री आशीष कुमार सिंघल को दिनांक 15.6.2011 (पूर्वाह्न) से केन्द्रीय जल आयोग में केन्द्रीय जल इंजीनियरिंग (ग्रुप 'क') सेवा के

सं. 8/2011 फाईल संख्या 25/1(5)/2010-स्थापना-I--संयुक्त इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा-2009 के परिणामों के आधार पर राष्ट्रपति ने



श्री डी. अशोकन को दिनांक 15.6.2011 (पूर्वाह्न) से केन्द्रीय जल आयोग में केन्द्रीय जल इंजीनियरिंग (ग्रुप 'क') सेवा के सहायक निदेशक/सहायक कार्यकारी इंजीनियर (सिविल/मैकेनिकल) के पद पर वेतन बैंड-3 में रु. 15,600--39,100/- तथा ग्रेड पे रु. 5,400/- के वेतनमान में कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

2. श्री डी. अशोकन कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे जिसे आवश्यक समझे जाने पर बढ़ाया जा सकता है।

के. राजप्पा, अवर सचिव

सं. 9/2011 {फाईल संख्या 25/2(26)/2009-स्थापना-I}--संयुक्त इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा-2008 (आरक्षित सूची) के परिणामों के आधार पर, राष्ट्रपति, ने श्री समर्थ अग्रवाल को दिनांक 9.5.2011 (पूर्वाह्न) से केन्द्रीय जल आयोग में केन्द्रीय जल इंजीनियरिंग (ग्रुप 'क') सेवा के सहायक निदेशक/सहायक कार्यकारी इंजीनियर (सिविल/मैकेनिकल) के पद पर वेतन बैंड-3 में रु. 15,600--39,100/- तथा ग्रेड पे रु. 5,400/- के वेतनमान में कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

2. श्री समर्थ अग्रवाल कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे जिसे आवश्यक समझे जाने पर बढ़ाया जा सकता है।

के. राजप्पा, अवर सचिव

सं. 10/2011 {फाईल संख्या 25/2(27)/2009-स्थापना-I}--संयुक्त इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा-2008 (आरक्षित सूची) के परिणामों के आधार पर, राष्ट्रपति, ने श्रीमती साची जैन को दिनांक 18.7.2011 (पूर्वाह्न) से केन्द्रीय जल आयोग में केन्द्रीय जल इंजीनियरिंग (ग्रुप 'क') सेवा के सहायक निदेशक/सहायक कार्यकारी इंजीनियर (सिविल/मैकेनिकल) के पद पर वेतन बैंड-3 में रु. 15,600--39,100/- तथा ग्रेड पे रु. 5,400/- के वेतनमान में कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

2. श्रीमती साची जैन कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे जिसे आवश्यक समझे जाने पर बढ़ाया जा सकता है।

के. राजप्पा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 20 जुलाई 2011

सं. 7/2011 {फाइल संख्या 20/28/2003-प्रशा. (पार्ट)}--राष्ट्रपति, श्री एस. वी. सिंह, उप सचिव, जल संसाधन मंत्रालय का वर्ष 2011 की केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) की वरिष्ठ चयन ग्रेड (निदेशक) की सूची में नाम शामिल किए जाने के फलस्वरूप उन्हें दिनांक

01.07.2011 के पूर्वाह्न से व्यक्तिगत रूप से पी.बी.-4, रु. 37,400--67,000/- + रु. 8,700/-(ग्रेड वेतन) में निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

खाटचिन लांगेल, अवर सचिव

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 19 जुलाई 2011

सं. 301/12/2009-एफ (एफ)--महामहिम राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर, श्री रिज़वान अहमद को 12 जुलाई, 2011 के पूर्वाह्न से 6,600/- रु. के ग्रेड पे सहित 15,600--39,100/- रु. (पे बैंड-3) के वेतनमान में फिल्म समारोह निदेशालय, नई दिल्ली में उप निदेशक के पद पर नियुक्त करती है।

2. श्री रिज़वान अहमद की चिकित्सकीय जांच की गई है और सरकारी सेवा हेतु उपयुक्त पाया गया है।

3. श्री रिज़वान अहमद अपनी नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष के लिए परिवीक्षाधीन होंगे।

एस. नागनाथन, अवर सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 20 जुलाई 2011

सं. 281/2011 (फा. सं. 5/1/2007-प्रशा. II)--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 01.07.2011 के कार्यालय आदेश संख्या 3/2/2011-सीएसआई(डी) के तहत वर्ष 2011 के लिए केन्द्रीय सचिवालय सेवा के वरिष्ठ चयन ग्रेड (निदेशक) में उनका नाम शामिल किए जाने तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उनके नामांकन के परिणामस्वरूप इस मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के निम्नलिखित उप सचिव को नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार दिनांक 01.07.2011 से इस मंत्रालय में नियमित आधार पर निदेशक के रूप में नियुक्त करती है :-

नाम	वरिष्ठ चयन ग्रेड (निदेशक) में शामिल किए जाने का वर्ष	मौजूदा तैनाती
सुश्री जी. जयंती	2011	मुख्य सचिवालय

2. इसके अतिरिक्त, अगले आदेशों तक वह अपने उपर्युक्त मौजूदा तैनाती स्थल पर कार्य करती रहेंगी।

एस. एस. बेदी, अवर सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 29 जुलाई 2011

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

सं. 704/14/2006-बी(डी)--राष्ट्रपति, ब्रोडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेन्ट्स इंडिया लिमिटेड के मुख्य प्रबंध निदेशक, श्री हरकेश गुप्ता के इस्तीफे को दिनांक 31 दिसंबर, 2011 (अपराह) से स्वीकार करती हैं।

अमृत लाल, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 6 जुलाई 2011

सं. ए-12025/2/2007-आई.आई.एस. (खंड. II)--राष्ट्रपति, सविलि सेवा परीक्षा, 2008 (अनुपूरक सूची) के परिणाम के आधार पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को 5,400/- रु. (8,000-275-13,500/- रु. का पूर्व-संशोधित वेतनमान) के ग्रेड पे के साथ 15,600--39,100/- रु. के पे बैंड में उनके नाम के सामने उल्लिखित तारीख से भारतीय सूचना सेवा, समूह 'क' के कनिष्ठ ग्रेड में नियुक्त करती हैं :-

क्र.	उम्मीदवारों के नाम	रैंक नं.	नियुक्ति की तारीख
सं.			

1.	श्री प्रांजल्य पार्थ लाथे	842	23.05.2011 (पूर्वाह)
----	---------------------------	-----	----------------------

2.	श्री मुकेश कुमार	861	01.06.2011 (पूर्वाह)
----	------------------	-----	----------------------

2. उपर्युक्त अधिकारी भारतीय सूचना सेवा, समूह 'क' के कनिष्ठ ग्रेड में नियुक्ति की तारीख से 2 वर्षों की अवधि के लिए परिवीक्षा पर होंगे।

3. उन्हें अगले आदेशों तक निम्नलिखित माध्यम एककों में सहायक निदेशक के पद पर तैनात किया गया है :-

1. श्री प्रांजल्य पार्थ लाथे - एनएसडी : नई दिल्ली

2. श्री मुकेश कुमार - पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली

रेनू अरोड़ा, अवर सचिव

शहरी विकास मंत्रालय  
(शहरी विकास विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 25 जुलाई 2011

सं. ए-12026/2/2009-न.ग्रा.नि.सं./प्रशासन-III/यू.डी.-II--संघ लोक सेवा आयोग की संस्तुति के आधार पर राष्ट्रपति, नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन के श्री आर. श्रीनिवास, सह नगर एवं ग्राम नियोजक को प्रतिनियुक्ति के आधार पर इस संगठन में ज्येष्ठ सामाजिक वैज्ञानिक के पद पर दिनांक 20.06.2011 से वेतन बैंड-3 में रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड वेतन 7,600/- रु. के वेतनमान में दो वर्षों के लिए नियुक्त करते हैं।

के. जी. मोहन्ता, अवर सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 15 जुलाई 2011

सं. ए-32014/01/2008-प्रशा. I (खण्ड)--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 07.07.2011 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 6/9/2010-सीएस-I(एस) के अनुसरण में, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा के निम्नलिखित सहायकों के अनुभाग अधिकारी (समूह 'ख'/राजपत्रित) (वेतन बैंड-2 : 9,300--34,800/- रुपये, ग्रेड वेतन-4,800/- रुपये) के ग्रेड में तदर्थ आधार पर नियुक्ति को 30.09.2011 तक बढ़ाती हैं :-

सं. अधिकारियों के नाम	चयन सूची वर्ष
सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री	
1. जे. के. कश्यप	1992
2. बी. डी. शर्मा	1992
3. सुनीता शर्मा	1992
4. एस. पी. गोयल	1992
5. एस. आर. चांदवाड़ा (अ.जा.)	1992
6. एन. के. जोशी	1993
7. आई. डी. शर्मा	1993
8. प्रेम चोपड़ा	1993
9. आर. के. त्रेहन (अ.जा.)	1993
10. नरेश कुमार	1994
11. रीता सिंह	1994
12. ओम प्रकाश (अ.जा.)	1994
13. शीश राम (अ.जा.)	1994
14. वी. सी. त्रिपाठी	1995
15. सरोज बाला भाटिया	1995
16. अनिल कुमार शर्मा	1995
17. विनोद कुमार (अ. जा.)	1995
18. योगेन्द्र वी. रणदिवे (अ.ज.जा.)	1995
19. जमना दास (अ.जा.)	1995
20. बी. टी. चिचुलकर (अ.ज.जा.)	1998
21. वीरेन्द्र कुमार	1999

2. उपर्युक्त सहायकों की अनुभाग अधिकारी के रूप में तदर्थ आधार पर नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन हैं :-

(क) तदर्थ पदोन्नति की अवधि 30.09.2011 तक अथवा नियमित अनुभाग अधिकारी के उपलब्ध होने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए होगी।

(ख) तदर्थ पदोन्नति के आधार पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति को ग्रेड में अनिश्चित अवधि तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए अनुभाग अधिकारी की चयन सूची में शामिल किए जाने अथवा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में वरिष्ठता के लिए दावे का कोई अधिकार नहीं होगा।

(ग) तदर्थ नियुक्ति अनुभाग अधिकारी ग्रेड में वरिष्ठता कोटा और/अथवा सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा (एलडीसीई) के माध्यम से नियमित अम्मीदवारों के उपलब्ध होने तक जारी रहेगी। तदर्थ नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के उपर्युक्त दोनों ही श्रेणियों में नियुक्ति के लिए अर्हक नहीं होने पर उन्हें कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा आबंटित किए जाने पर ऐसे नियमित अधिकारियों (नियमित अनुभाग अधिकारी) के कार्य ग्रहण करने की तिथि से सहायक ग्रेड में प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

प्रदीप गौड़, अवर सचिव

## PRIME MINISTER'S OFFICE

New Delhi-110101, the 21st July 2011

No. A-22012/004/2010-PME—In supersession of Prime Minister's Office notification of even No. dated 27.07.2010, the President is pleased to extend the appointment of Shri Dhiraj Kumar Srivastava, Rajasthan Administrative Service (1994) as Private Secretary to Chairperson, National Advisory Council on co-terminus basis beyond 04.07.2011 and upto 14.07.2015 or until further orders, whichever event takes place earlier.

ASHISH GUPTA, Director

New Delhi-110101, the 22nd July 2011

No. A-22012/01/2011-PME—The President is pleased to appoint Shri Krishan Kumar, IAS (PB : 1997) as Director in the Prime Minister's Office w.e.f. the forenoon of 22 July, 2011 for a period of five years or until further orders, whichever is earlier.

P. K. BALI, Under Secy.

The 26th July 2011

No. A-22012/01/2011-PME—Consequent upon appointment as Counsellor in Embassy of India, Washington Shri Sudhakar Dalela, (IFS : 1993) has relinquished the charge of the post of Director in the Prime Minister's Office with effect from the afternoon of 26 July, 2011.

P. K. BALI, Under Secy.

The 27th July 2011

No. A-22012/01/2011-PME—The President is pleased to appoint Shri Munu Mahawar, IFS (1996) as Director in the Prime Minister's Office w.e.f. the afternoon of 26 July, 2011 for a period of three years or until further orders, whichever is earlier.

P. K. BALI, Under Secy.

## RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 28th July 2011

No. RS/06/05/2011/57-Perl. I—Smt. Pratibha Shukla has been appointed as Private Secretary in the Rajya Sabha Secretariat in the Personal Staff of Leader of Bahujan Samaj Party (BSP) in Rajya Sabha (Shri Satish Chandra Misra) in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 5,400/- with effect from the forenoon of 12 July, 2011 and until further orders.

2. The appointment of Smt. Pratibha Shukla is at the discretion of the present Leader of BSP in Rajya Sabha and will be co-terminus with the term of her office.

S. RANGARAJAN, Deputy Director

The 28th July 2011

No. RS/06/04/2011/60-Perl. I—The Services of Shri Manish Kumar, who had been appointed as Senior Private Secretary on co-terminus basis in the Personal Staff of Chairman, Committee on Papers Laid on the Table (Shri Tariq Anwar), stand terminated w.e.f. the afternoon of 22 July, 2011.

S. RANGARAJAN, Deputy Director

The 29th July 2011

No. RS/03/07/1/2011/59-Perl. I—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Shri Jugal Kishor, Assistant Director (E&T) in the Rajya Sabha Secretariat, to officiate in the grade of Deputy Director (E&T) in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 7,600/- plus usual allowances admissible under the rules on ad hoc basis in that Secretariat with effect from the forenoon of 28 July, 2011 and until further orders.

S. RANGARAJAN, Deputy Director

The 1st August 2011

No. RS/20/01/2011/61-Perl. I—On attaining the age of superannuation, Smt. Vanjula G. Rajan, Joint Director retired from service with effect from the afternoon of 31 July, 2011.

S. RANGARAJAN, Deputy Director

## DEPARTMENT OF SPACE

Bangalore-560231, the 21st July 2011

No. 11/1(1)/2011-I—The President is pleased to appoint Dr. P. S. Roy as Director in the Indian Institute of Remote Sensing, Dehradun of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 30.04.2011 and until further orders.

N. PATTABHI RAMAN, Under Secy.

The 22nd July 2011

No. 5/1(1)/2011-I—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Scientists/Engineers to the posts mentioned against each in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 01.01.2011 and until further orders:

Sl. No.	Name	Post from which promoted	Post to which promoted
1	2	3	4
	Shri/Smt/Kum		
1.	R. Gopinath	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
2.	N. Prasad	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF

1	2	3	4
	Shri/Smt./Kum.		
3.	Debasis Chakraborty	Scientist/Engineer-SF	Scientist/Engineer-SG
4.	Ramesh B	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
5.	Padmanabhan	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF

N. PATTABHI RAMAN, Under Secy.

No. 5/1(1)/2011-I—The President is pleased to appoint undermentioned Scientists/Engineers-SC in the ISRO the Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space on temporary capacity with effect from the forenoon of 10.12.2010 and until further orders.

Shri/Smt./Kum.

1. Dileep Kumar Rajput
2. Hussien Basha Khanubhai
3. Anshul Jindal
4. Manas Ranjan Sahoo
5. Prashant Kumar Rai
6. Alok Kumar
7. Mukund Kumar Thakur
8. Vivek Kumar
9. Anand S. K.
10. Harsh Kumar Dashora

N. PATTABHI RAMAN, Under Secy.

No. 5/1(1)/2011-I—The President is pleased to appoint Sh. Chandan Malakar Scientist/Engineer-SC in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space on temporary capacity with effect from the forenoon of 14.12.2010 and until further orders.

N. PATTABHI RAMAN, Under Secy.

No. 5/1(2)/2011-I—Consequent on attaining the age of superannuation the following Scientists/Engineers in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space have relinquished the charge of the post mentioned against each with effect from the afternoon of 31.03.2011:—

Sl. No.	Name	Post
	Shri/Smt./Kum.	
1.	M. Krishnaswamy	Outstanding Scientist
2.	H. N. Bhagavan	Scientist/Engineer-G

1	2	3
	Shri/Smt./Kum.	
3.	B. Ravinarayana Bhat	Scientist/Engineer-SG
4.	M. S. Sreekantaswamy	Scientist/Engineer-SG
5.	M. H. Krishnappa	Scientist/Engineer-SC

N. PATTABHI RAMAN, Under Secy.

No. 7/1(1)/2011-I—The President is pleased to appoint on promotion Sri Ashoka K. as Scientist/Engineer-SC in the Liquid Propulsion Systems Centre, Bangalore of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 01.01.2011 and until further orders.

N. PATTABHI RAMAN, Under Secy.

No. 7/1(2)/2011-I—The President is pleased to accept the resignation from service of Shri Parag Barman, Scientist/Engineer-SC in the Liquid Propulsion Systems Centre, Valiamala, Thiruvananthapuram of the Department of Space with effect from the afternoon of 19.04.2011.

N. PATTABHI RAMAN, Under Secy.

#### PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 14th July 2011

No. A-43011/05/2011-Adm.-1—In pursuance of the approval of the Cabinet communicated vide its minutes of the meeting dated the 2nd June, 2011, the Independent Evaluation Office (IEO) is hereby constituted and notified as an attached office under aegis of Planning Commission, to carry out Independent Evaluation of various Flagship Programmes, Schemes, etc. as may be entrusted to it by the Development Evaluation Advisory Committee (DEAC) or the Government of India, as the case may be, from time to time.

2. Composition: The initial composition of the IEO shall be as follows:

Post	Level	No. of posts
Director General	Rank and Status of Member, Planning Commission	1
Director	HAG Scale	4
Joint Secretary	SAG Scale	1
Total:		6

#### 3. Function and Methodology:

- (i) The IEO shall be guided by the Development Evaluation Advisory Committee (DEAC), which shall act as the Apex Body for guiding and prioritizing the areas of research and methodologies to be adopted.

- (ii) The IEO shall have a Governing Board Chaired by the Deputy Chairman, Planning Commission. The Director General, IEO; Member-Secretary or Secretary, Planning Commission; Representative of the Prime Minister's Office; Representative of the Ministry of Finance; Chief Statistician of India or Secretary (Statistics) and two experts (to be selected by the DEAC) shall be the Members of the Governing Board.
- (iii) The IEO shall be permitted to engage the services of leading Social Science Research or other Knowledge Institutions to evaluate the impact of Flagship Programmes and place it in the Public Domain.
- (iv) Subject to the evaluation agenda of the IEO as may be decided by the DEAC from time to time, the following Flagship Programmes shall be within the purview of the IEO, namely:—
  - (a) Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (MGNREGA);
  - (b) Sarva Shiksha Abhiyan (SSA including CMDM);
  - (c) National Rural Health Mission (NRHM);
  - (d) Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission (JNNURM);
  - (e) Integrated Child Development Services (ICDS);
  - (f) Rashtriya Krishi Vikash Yojana (RKVY);
  - (g) Prime Minister's Gram Sadak Yojana (PMGSY);
  - (h) Indira Awas Yojana (IAY);
  - (i) Accelerated Irrigation Benefit Programme (AIBP);
  - (j) Water and Sanitation Missions namely Rajiv Gandhi National Drinking Water Mission and Total Sanitation Campaign;
  - (k) Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojana;
  - (l) Important Skill Development Programmes.
- (v) The DEAC shall add, omit, modify or amend the list specified above, from time to time.
- (vi) After its full-fledged establishment, the IEO shall produce 3 to 5 world class reports each year.
- (vii) The findings of the IEO shall be placed before the DEAC, which shall seek the comments of the implementing Ministry as well as the Planning Commission. The report of the IEO together with such comments shall be sent to the Prime Minister's Office by the Deputy Chairman, Planning Commission and a copy shall be placed in the Library of the Parliament. The report together with such comments shall also be placed on the website for public information.
- (viii) The Evaluation data shall be made available to Students or Researchers on a nominal and reasonable

fee to facilitate research by Academic Institutions and Think Tanks.

- (ix) The IEO will also advise the Planning Commission and the implementing Ministries in developing appropriate Management Information Systems consistent with the valuation objectives and it shall be the duty of such implementing Ministry to make all reasonable efforts to design and implement such Management Information Systems.

4. The expenditure on account of IEO shall be incurred as a Plan Scheme for which budget provision would be made in the budget grant of Planning Commission.

5. The Planning Commission shall help IEO to arrange its office accommodation after it gets established and it will be housed in a building separate from the Planning Commission.

S. MUKHERJEE, Director (Admn.)

New Delhi, the 7th July 2011

No. F.6(2160)/2010-Adm.-I—In pursuance of Department of Economic Affairs' Order T-18/2011 dated 23.06.2011 issued from File No. 13016/03/2011-IES, Shri Amar Jit Banga, NFSG Officer of IES has assumed the charge as Director in Planning Commission in Pay Band-4 i.e. Rs. 37,400—67,000+Grade Pay Rs. 8,700/- w.e.f. 01.07.2011(FN).

G. RAJEEV, Under Secy.

The 19th July 2011

No. F.6 (1959/2006)-Adm.-I—The Competent Authority has approved the appointment of Shri S. K. Saha, SG, IRSEE, Director, PPP, Railway Board as Private Secretary to the Minister of State (Planning, Parliamentary Affairs, Science & Technology & Earth Sciences) (Dr. Ashwani Kumar) at the level of Director (in relaxation of "cooling off" requirement), for a period of 5 years with effect from the 15 July, 2011(AN) or till he ceases to function as Private Secretary to the Minister or until further orders, whichever event occurs the earliest, with the direction upon completion of the tenure as PS, the Officer should revert to his cadre.

G. RAJEEV, Under Secy.

#### MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

New Delhi-110001, the 12th July 2011

No. 12014/02/2009-ISS—The President is pleased to appoint the following probationers of the Indian Statistical Service (direct recruits of the examination held in 2006)

substantively to Junior Time Scale of the Service w.e.f. 04.02.2010:—

Sl. No. Name

- (S/Shri)
1. Ms. Neha Srivastava
2. Dr. J. S. Tomar
3. Uttam Kumar Majee
4. Ms. Soumya P. Kumar
5. Ms. Shruti Shukla
6. Akshaya Kumar Panigrahi
7. Saurabh Kumar Dubey
8. Ms. Maya S. S.
9. Cyriac George
10. Kumar Sundram
11. Fakhre Alam
12. Shivnath Singh
13. Muhammed Yasir F.
14. Sanjay Kumar
15. Amit Verma
16. Ms. Noushida N.A.
17. Ms. Praseeja P.
18. Mukesh
19. Monojit Das
20. Vishwanath Pratap Singh
21. Anil Phulwari

T. S. JAWAHAR, Director

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE  
(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, the 26th July 2011

No. A-12026/12/2001-Admn.1(L.D)(ii)—The President is pleased to appoint Shri R. S. Jayakrishnan, Superintendent (Legal) in the Legislative Department, Ministry of Law and Justice to officiate as Assistant Legislative Counsel (Malayalam) in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 6,600/-, in the Official Languages Wing of Legislative Department, Ministry of Law and Justice on ad hoc basis for a period of six months with effect from the forenoon of 26th July, 2011 and until further orders.

2. This ad hoc appointment will not bestow on Shri R.S. Jayakrishnan any claim for regular appointment whatsoever

to the grade of Assistant Legislative Counsel (Malayalam) nor the ad hoc service rendered by him will count for the purpose of seniority in the grade or for his promotion to the next higher grade.

M. R. BEERH, Director (Admn.)

No. A-12026/12/2001-Admn.1(L.D)(ii)—The President is pleased to appoint Shri Mohd. Hussain, Private Secretary of Stenographers Grade "A and B" (Merged) in CSSS cadre of the Ministry of Law and Justice to officiate as Assistant Legislative Counsel (Punjabi) in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 6,600/-, in the Official Languages Wing of Legislative Department, Ministry of Law and Justice on hoc basis for a period of six months with effect from the forenoon of 26th July, 2011 and until further orders.

2. This ad hoc appointment will not bestow on Shri Mohd. Hussain any claim for regular appointment whatsoever to the grade of Assistant Legislative Counsel (Punjabi) nor the ad hoc service rendered by him will count for the purpose of seniority in the grade or for his promotion to the next higher grade.

M. R. BEERH, Director (Admn.)

DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS

New Delhi, the 20th July 2011

No. A-12034/2/2009-Admn.IV(LA) Vol.III—Consequent on demission of office by Dr. M. Veerappa Moily as Minister for Law & Justice with effect from 13.07.2011 and as per instructions contained in the Department of Personnel & Administrative Reforms O.M. No. 10/20/97-CS.II dated 02.08.1979, winding up period of 15 days from 13.07.2011 to 27.07.2011 is granted to following officers in O/o the former Minister for Law & Justice (Dr. M. Veerappa Moily).

Name & Designation

- (i) Shri S. Twickly, Addl. Private Secretary
- (ii) Shri Gregory Robert, Asstt. Private Secretary
- (iii) Shri Chatter Pal Sood, Asstt. Private Secretary
- (iv) Shri Jagdish Chander Manchanda, First PA

ASHA SOTA, Under Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-1, the 18th July 2011

No. 14016/13/2011-UTS.I—In exercise of the powers conferred by Clause (1) of Article 239 of the Constitution of

India, the President is pleased to appoint Shri Amar Nath, IAS (AGMU:94), as Administrator, Union Territory of Lakshadweep with effect from 11.7.2011 (F.N.), until further orders.

BALDEV RAJ, Under Secy.

New Delhi, the 26th July 2011

No. A-43011/03/2011-Ad.I—The President is pleased to appoint Shri D. N. Kataria, a permanent Grade-I (Under Secretary) Officer of Central Secretariat Service, retired on 31.03.2007, as Deputy Secretary in the Ministry of Home Affairs on notional basis, consequent upon inclusion of his name in the Select List of Selection Grade of Central Secretariat Service for the year 2005.

2. In this connection, DoP&T's O.M. No. F.9/1/2011-CS.I(D), dated 21.07.2011 refers.

3. The appointment would be deemed to have been made effective w.e.f. 01.07.2005, i.e. the date his immediate juniors were promoted.

J. B. SHARMA, Under Secy.

New Delhi-110001, the 29th July 2011

No. I-18011/09/2011-IPS-IV—In exercise of the powers conferred by Rule-3A of Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm in the Indian Police Service, the following members of the Indian Police Service borne on the cadre of Chhattisgarh with effect from dates mentioned against their names:—

Sl. No.	Name of the IPS Probationers	Date of Confirmation
	S/Shri	
1.	Ms Neha, IPS (CG:2004)	06.09.2006
2.	Abhishek Pathak, IPS(CG:2004)	06.09.2006
3.	Badri Narayan Meena, IPS(CG:2004)	27.12.2006
4.	Myinthungo Tungoe, IPS(CG:2006)	31.08.2008
5.	Deepak Kumar Jha, IPS(CG:2007)	18.08.2009
6.	Abhishek Shandilya, IPS(CG:2007)	10.12.2009
7.	Ram Gopal, IPS(CG:2007)	10.12.2009
8.	Jitendra Singh Meena, IPS(CG:2007)	10.12.2009

RAJINDER KUMAR, Section Officer (IPS-IV)

No. I-18011/12/2011-IPS-IV—In exercise of the powers conferred by Rule-3A of Indian Police Service (Probation)

Rules, 1954, the President is pleased to confirm in the Indian Police Service, the following members of the Indian Police Service borne on the cadre of Rajasthan with effect from dates mentioned against their names:—

Sl. No.	Name of the IPS Probationers	Date of Confirmation
	S/Shri	
1.	Chalke Santosh Kumar Tukaram, IPS (RJ:2004)	06.09.2006
2.	Gaurav Srivastava, IPS(RJ:2004)	06.09.2006
3.	Om Prakash, IPS(RJ:2004)	06.09.2006
4.	Sharat Kaviraj, IPS(RJ:2004)	06.09.2006
5.	S. Parimala, IPS(RJ:2004)	27.12.2006

RAJINDER KUMAR, Section Officer (IPS-IV)

No. I-18011/10/2011-IPS-IV—In exercise of the powers conferred by Rule-3A of Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm in the Indian Police Service, the following members of the Indian Police Service borne on the cadre of Karnataka with effect from dates mentioned against their names:—

Sl. No.	Name of the IPS Probationers	Date of Confirmation
	S/Shri	
1.	Chetan Singh Rathore, IPS (KTK:2007)	10.12.2009
2.	Ravi Kumar Y.S., IPS(KTK:2007)	10.12.2009
3.	Amit Singh, IPS(KTK:2007)	10.12.2009

RAJINDER KUMAR, Section Officer (IPS-IV)

No. I-18011/13/2011-IPS-IV—In exercise of the powers conferred by Rule-3A of Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm in the Indian Police Service, the following members of the Indian Police Service borne on the cadre of Uttar Pradesh with effect from dates mentioned against their names:—

Sl. No.	Name of the IPS Probationers	Date of Confirmation
1	2	3
	S/Shri	
1.	Subash Chandra Dubey, IPS (UP:2005)	22.08.2007
2.	Ram Krishna Bhardwaj, IPS(UP:2005)	22.08.2007
3.	Deepak Kumar, IPS(UP:2005)	22.08.2007
4.	Ankaj Sharma, IPS(UP:2005)	22.08.2007



1	2	3
5.	Manzil Saini, IPS(UP:2005)	22.08.2007
6.	Akhilesh Kumar, IPS(UP:2005)	22.08.2007
7.	J. Ravinder Goud, IPS(UP:2005)	22.08.2007
8.	Upendra Kumar Agrawal, IPS(UP:2005)	12.12.2007
9.	Prem Kumar Gautam, IPS(UP:2005)	12.12.2007
10.	Akash Kulhari, IPS(UP:2006)	18.12.2008
11.	Abdul Hamid, IPS(UP:2006)	18.12.2008
12.	Dharmendra Singh, IPS(UP:2006)	29.08.2008
13.	Happy Guptan, IPS(UP:2006)	29.08.2008
14.	L. R. Kumar, IPS(UP:2006)	29.08.2008
15.	Manoj Kumar, IPS(UP:2006)	18.12.2008
16.	Shalabh Mathur, IPS(UP:2006)	18.12.2008

RAJINDER KUMAR, Section Officer (IPS-IV)

The 2nd August 2011

No. I-18011/11/2011-IPS-IV—In exercise of the powers conferred by Rule-3A of Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm in the Indian Police Service, the following members of the Indian Police Service borne on the cadre of Haryana with effect from dates mentioned against their names:—

Sl. No.	Name of the IPS Probationers	Date of Confirmation
	S/Shri	
1.	Maneesh Chaudhary, IPS (HY:2005)	12.12.2007
2.	Shashank Anand, IPS(HY:2006)	29.08.2008
3.	Ashwin, IPS(HY:2006)	18.12.2008
4.	Pankaj Nain, IPS(HY:2007)	10.12.2009
5.	Simardeep Singh, IPS(HY:2007)	18.08.2009

RAJINDER KUMAR, Section Officer (IPS-IV)

#### NATIONAL FIRE SERVICE COLLEGE

Nagpur-440 001, the 26th July 2011

No. FC/5—10/2011-12—The President is pleased to appoint Shri H. Z. Galbale, Assistant in the National Fire Service College, Nagpur, Maharashtra, as Administrative Officer in the pay scale of Rs. 9,300—34,800+Grade Pay Rs. 4,600/- in the National Fire Service College, Nagpur, Maharashtra on Promotion w.e.f. 28.01.2011 (F.N.) until further orders.

SHAMIM, Director

#### MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS (DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 26th July 2011

No. 23012/08/2010-AIS-III—Ms. Rubal Gupta, IAS (MH : 2008) appointed to the Indian Administrative Service on the basis of the Civil Services Examination held in 2007 and borne on the cadre of Maharashtra, has been permitted to change her name from "Rubal Gupta" to "Rubal Prakher Agarwal". She will accordingly be recognised as Mrs. Rubal Prakher Agarwal for all official purposes.

NAVNEET MISRA, Under Secy.

#### DEPARTMENT OF PENSION AND PENSIONERS' WELFARE

New Delhi, the 28th July 2011

No. 19011/4/2007-Admn.I—On attaining the age of superannuation, Shri K. S. Chibb, Director in this Department retires from Government service with effect from the afternoon of 31st July, 2011.

S. P. KAKKAR, Under Secy.

#### MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 8th July 2011

No. AA/3210/1/2005—The President is pleased to appoint Dr. Karan Singh as the President of the Indian Council for Cultural Relations, New Delhi for a further period of three years with effect from 19th August 2011.

Dr. Karan Singh will have the rank of Cabinet Minister in this assignment.

L. T. MUANA, Joint Secy. (Coordination)

#### MINISTRY OF FINANCE (DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 28th July 2011

No. A-19013/16/2006-Admn.II—In pursuance of Department of Personnel & Training's O.M. No. 1/1/2011-CS.II (A) dated 18.7.2011, the President is pleased to appoint Smt. Jayanthi Srinivasan, presently working as Senior Principal Private Secretary in the Department of Economic Affairs to the post of Principal Staff Officer (PSO) of CSSS in the Pay Band-4 of Rs. 37,400—67,000/-+Rs. 8,700/- (Grade Pay) in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs with effect from 21.07.2011 (FN).

ASHOK KUMAR, Under Secy.

The 1st August 2011

No. A. 12011/6/2011-Admn.II—The President is pleased to extend the appointment of the following Stenographers Grade 'C' of Central Secretariat Stenographer Service (CSSS) of Finance Cadre, to the grade of Stenographer Grade 'A&B' (Merged) designated as Private Secretary) of Central Secretariat Stenographer Service (CSSS) in the Pay Band (PB-2 of Rs. 9,300—34,800+Rs. 4,800/- Grade Pay) in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs purely on ad-hoc basis upto 30.06.2011 or till regular officers become available or until further orders, whichever is earlier:—

- |                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1. Shri Sanjeev Kumar Sharma | 2. Shri Vijay Kumar Sharma    |
| 3. Shri Manu Ram Tudu        | 4. Shri P. Natarajan          |
| 5. Shri Promod Kuma          | 6. Shri Atul Saxena           |
| 7. Smt. Vimal Chanana        | 8. Shri. Dhana Ram            |
| 9. Shri Abhijit Sengupta     | 10. Smt. Mallika Ravi Shankar |
| 11. Shri Sarvan Kumar        | 12. Shri Santosh Kumar Sagar  |
| 13. Smt. Rama Devi Sharma    | 14. Smt. Seema Rani Arora     |
| 15. Smt. Rita Ohri           |                               |

2. The ad-hoc appointment of the above Stenographers Grade 'C' as Stenographer Grade 'A&B' (Merged) (designated as PS) will be subject to the following terms and conditions:—

- (a) The ad-hoc appointments shall not confer on the appointees any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade 'A&B' (Merged)(PS) of CSSS;
- (b) Ad-hoc appointments may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

ASHOK KUMAR, Under Secy.

#### DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

New Delhi, the 20th July 2011

No. 8/9/2009-DRT—In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 8 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993, the Central Government, hereby, authorizes Justice R. K. Gupta, Chairperson, Debts Recovery Appellate Tribunal, Allahabad, to discharge the functions of Chairperson, Debts Recovery Appellate Tribunal, Delhi, also with immediate effect until further orders.

RAJIV SHARMA, Under Secy.

The 21st July 2011

No. 15012/1/2008-DRT—On attaining the age of 65 years, Justice Allah Raham, Chairperson, Debts Recovery

Appellate Tribunal, Mumbai, will demit the charge of Chairperson of the Appellate Tribunal with effect from 21st July, 2011 (A.N.).

In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 8 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993, the Central Government, hereby, authorizes Justice S.P. Talukdar, Chairperson, Debts Recovery Appellate Tribunal, Kolkata, to discharge the functions of Chairperson, Debts Recovery Appellate Tribunal, Mumbai, also with immediate effect, until further orders.

RAJIV SHARMA, Under Secy.

New Delhi, the 25th July 2011

No. A-19011/267/2007-Estt(Part)—The President is pleased to appoint Shri Achintan Bhattacharya, Director, CSS as Joint Secretary (in situ) in Senior Administrative Grade (SAG) in the Department of Financial Services, Ministry of Finance with effect from the afternoon of 22nd July, 2011 till he is placed under Central Staffing Scheme.

VIJAY MALHOTRA, Under Secy.

#### DEPARTMENT OF EXPENDITURE

New Delhi, the 21st July 2011

No. A. 32014/2/2011-Ad.I—The President is pleased to appoint Shri Jagtar Singh, a regular Stenographer Grade 'C' of Central Secretariat Stenographers' Service to the post of Steno, Grade 'A&B' (Merged) (designated as Private Secretary) in the Ministry of Finance, Department of Expenditure, in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800 + Rs. 5,400/- (Grade Pay) purely on ad-hoc basis consequent upon his transfer from Department of Disinvestment with effect from 01.07.2011 for a period upto 31.12.2011 or till the regular Steno Gr. 'A&B' (Merged) of CSSS (PS) become available, whichever is earlier.

2. The ad-hoc appointment of the above named officials shall not confer on them any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List of Steno Gr. 'A&B' (Merged) of CSSS (PS).

MEETALI GHOSH, Under Secy.

#### MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

New Delhi, the 19th July 2011

No. PFG(740)/2011-Ad.II—Consequent upon his transfer vide Office Order No. A-22011/1/2011-Ad.II Vol-I dated 07.07.2011, Shri A. M. Sharma, a Junior Time Scale Officer of the Indian Corporate Law Service, has assumed the charge

to the post of Assistant Director, MCA Headquarters (CL-VI) w.e.f. 08.07.2011 (A.N.).

R. K. PANDEY, Under Secy.

The 21st July 2011

No. PFG(380)/79-Ad.II—Consequent upon his transfer vide Office Order No. A-22011/1/2011-Ad.II Vol-I dated 21.06.2011, Shri E. Selvaraj, a Senior Administrative Grade Officer of the Indian Corporate Law Service, has assumed the charge of the post of Regional Director (SER), Hyderabad w.e.f. 01.07.2011 (F.N.).

R. K. PANDEY, Under Secy.

No. PFG(395)/80-Ad.II—Consequent upon his transfer vide Office Order No. A-22011/1/2011-Ad.II Vol-I dated 21.06.2011, Shri K. Pandian, a Senior Administrative Grade Officer of the Indian Corporate Law Service, has assumed the charge of the post of Director, Office of the Director General of Corporate Affairs (stationed at Chennai) w.e.f. 14.07.2011 (F.N.).

R. K. PANDEY, Under Secy.

The 27th July 2011

No. A-32011/6/2009-Ad.II—The President is pleased to appoint the following Group B Officers to Junior Time Scale (Group A) of Indian Corporate Law Service (PB-3, Rs. 15,600—39,100/-+Grade Pay Rs. 5,400/-) on their promotion with effect from the dates mentioned against their names :—

S. No.	Name	Date of effect
1.	(Sh./Smt./Kum.) Surender Wadhwa	03.05.2011 (F.N.)
2.	Anupam Vashista	16.05.2011 (A.N.)

R. K. PANDEY, Under Secy.

The 29th July 2011

No. PFG(473)/89-Ad.II—Consequent upon his transfer vide Office Order No. A-22011/1/2011-Ad.II-Vol-I dated 21.06.2011, Shri M. A. Kuvadia, a Junior Administrative Grade Officer of the Indian Corporate Law Service, has assumed the charge of the post of Joint Director in the Office of Regional Director (SR), Chennai as well as for performing the duties of Regional Director (SR) w.e.f. 14.07.2011 (F.N.).

R. K. PANDEY, Under Secy.

No. PFG(493)/90-Ad.II—Consequent upon his transfer vide Office Order No. A-22011/1/2011-Ad.II dated 11.07.2011, Shri K. L. Kamboj, a Junior Administrative Grade Officer of the Indian Corporate Law Service, has assumed the charge of the post of Joint Director in the Office of Regional Director (NWR), Ahmedabad as well as for performing the duties of Regional Director (NWR) w.e.f. 12.07.2011 (A.N.).

R. K. PANDEY, Under Secy.

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY  
(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY &  
PROMOTION)

New Delhi-110107, the 21st July 2011

No. A-32019/1/2001-E.I—The President is pleased to appoint the following Technical Officers of Department of Industrial Policy & Promotion and Department of Heavy Industry to officiate, on ad hoc basis, in the post and for the period shown against each :—

Sl. No.	Name and Substantive post held	Ad hoc post held with date of initial appointment	Extension of ad hoc appointment	
			From	To
1.	S/Shri Sushil Lakra, Dev. Officer (Engg.)	Industrial Adviser (Engg.) 4.11.2008	1.7.2011	31.12.2011
2.	K. K. Sinha, Dev. Officer (Engg.)	Industrial Adviser (Engg.) 1.12.2010	1.12.2011	31.12.2011
3.	B. K. Mishra, Dev. Officer (Engg.)	Addl. Industrial Adviser (Engg.) 12.2.2009	1.7.2011	31.12.2011
4.	Dr. Ashish Kumar, Asstt. Dev. Officer (Engg.)	Sr. Dev. Officer (Engg.) 10.8.2010	10.8.2011	31.12.2011
5.	Gajraj Singh, Asstt. Dev. Officer (Engg.)	Sr. Development Officer (Engg.) 1.8.2005	1.7.2011	31.12.2011
6.	N. L. Goswami, Asstt. Dev. Officer (Engg.)	Sr. Development Officer (Engg.) 17.7.2007	1.7.2011	31.12.2011
7.	Mohd. Zakaria, Khan Yusuf Sai, Asstt. Dev. Officer (Engg.)	Sr. Development Officer (Engg.) 1.8.2007	1.7.2011	31.12.2011
8.	A. P. Singh, Asstt. Dev. Officer (Engg.)	Sr. Development Officer (Engg.) 1.9.2007	1.7.2011	31.12.2011
9.	S. S. Bose, Asstt. Dev. Officer (Chem.)	Sr. Development Officer (Chem.) 1.8.2007	1.7.2011	31.12.2011

1	2	3	4	5
10.	A. M. Balraj, Asstt. Dev. Officer (Engg.)	Sr. Development Officer (Engg.) 1.8.2008	1.7.2011	31.12.2011
11.	Dr. S. S. Gupta, Asstt. Dev. Officer (Engg.)	Sr. Development Officer (Engg.) 1.9.2009	1.7.2011	31.12.2011
12.	S. K. Jain-III, Asstt. Dev. Officer (Engg.)	Development Officer (Engg.) 1.10.2003	1.7.2011	31.12.2011
13.	B. C. Nayak, Asstt. Dev. Officer (Engg.)	Development Officer (Engg.) 1.9.2004	1.7.2011	31.12.2011
14.	R. K. Jaiswal, Asstt. Dev. Officer (Engg.)	Development Officer (Engg.) 12.8.2004	1.7.2011	31.12.2011
15.	Sundeep Chauhan, Asstt. Dev. Officer (Engg.)	Development Officer (Engg.) 1.3.2005	1.7.2011	31.12.2011

2. The above appointments have been ordered purely on ad hoc basis and will not confer any right on the officers to continue indefinitely or for seniority in the grade or for promotion to the higher grade etc. The Government reserves the right to terminate the ad hoc appointment without assigning any reason or giving notice etc. to the officers concerned.

L. K. SHARMA, Under Secy.

No. A-12023/1/2010-E.I.—The President is pleased to appoint Shri Vikas Kumar Agrawal as Protocol Officer in the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, on ad hoc deputation basis for a further period of six months with effect from 17.8.2011 to 16.2.2012 or until further orders, whichever is earlier.

L. K. SHARMA, Under Secy.

#### MINISTRY OF CHEMICALS & FERTILIZERS

(DEPARTMENT OF PHARMACEUTICALS)

#### NATIONAL PHARMACEUTICAL PRICING AUTHORITY

New Delhi-110001, the 25th July 2011

No. A-12011/01/2011-Estt.(NPPA)—On attaining the age of superannuation, Shri A. Balakrishnan, Senior Principal Private Secretary has retired from Government Service w.e.f. 30.06.2011 (A. N.).

SHIV NARAIN, Dir. (Admn.)

#### MINISTRY OF MINES

New Delhi, the 19th July 2011

No. 3/7/2006-Estt.—In pursuance of Department of Personnel & Training's Order No. 6/9/2010-CS.I(S) dated

11th February, 2011, the President is pleased to appoint Shri Kumar Amrendra, an Assistant of Central Secretariat Service borne on the cadre of Ministry of Coal as Section Officer on ad hoc basis in the Ministry of Mines, with effect from the afternoon of 01.07.2011 and until further orders.

NEETA GUPTA, Under Secy.

#### MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

New Delhi-110049, the 8th July 2011

No. A-19011/5/2008-Admn.—Consequent upon inclusion of her name in the CSS Senior Selection Grade (Director) Select List for the year 2011, Smt. Rupali Banerjee Singh, Deputy Secretary has been promoted as Director of CSS on regular basis from the date of assumption of charge vide DoPT's Office Order No. 3/2/2011.CS-I(D) dated 01.07.2011.

Smt. Rupali Banerjee Singh has assumed charge as Director in the Ministry of Food Processing Industries from 01.07.2011.

SANJAI BAJPAI, Under Secy.

#### MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS)

New Delhi, the 29th July 2011

No. A-12011/5/2007-Estt.—With the approval of the Competent Authority in the Department of Consumer Affairs, and in exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 3 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952, it has been decided that Shri Ramesh Abhishek, IAS (BH:82), Member, Forward Markets Commission, will also hold the additional charge of the Chairman, Forward Markets Commission, in addition to his existing duties, with effect from 1st August, 2011 till further orders or till such time a regular Chairman joins, whichever is earlier.

OM PRAKASH, Dy. Secy.

No. A-12011/5/2007-Estt.—Consequent upon completion of the re-employment term of one year on contract basis, Shri B. C. Khatua, IAS (MH:76), Chairman, Forward Markets Commission, Mumbai shall relinquish the charge of the post of Chairman with effect from the afternoon of 31st July, 2011.

OM PRAKASH, Dy. Secy.

#### DEPARTMENT OF FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION

New Delhi, the 20th July 2011

No. A-12022/1/2009-E.I.—Consequent on inclusion of his name in the Senior Selection Grade (Director) Select List of

CSS for the year 2011, the President is pleased to appoint Shri Bhagwan Singh, Deputy Secretary as Director in the Department of Food & Public Distribution w.e.f. the forenoon of 1st July 2011 in the Pay Band (PB-4) of Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay of Rs. 8,700/- until further orders.

B. S. A. PADMANABHA, Dy. Secy.

No. A-12022/1/2009-E.I.—Consequent on inclusion of his name in the Senior Selection Grade (Director) Select List of CSS for the year 2011, the President is pleased to appoint Shri M. Jayaraman, Deputy Secretary as Director in the Department of Food & Public Distribution w.e.f. the forenoon of 1st July 2011 in the Pay Band (PB-4) of Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay of Rs. 8,700/- until further orders.

B. S. A. PADMANABHA, Dy. Secy.

#### MINISTRY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

##### (DEPARTMENT OF SCIENCE & TECHNOLOGY)

New Delhi-110016, the 6th May 2011

No. A.11013/01/2011-A.I(A)—The President is pleased to appoint Shri Jagdeep Goel (IRS : 1989) as Officer on Special Duty (OSD) in the personal staff of Shri Pawan Kumar Bansal, Hon'ble Minister of Science & Technology in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay of Rs. 8,700/- (PB-4) at the level of Director with effect from 20.01.2011 (FN) on 'lateral shift basis' and upto the balance period of his admissible tenure of five years i.e. upto 05.07.2014 or on co-terminus basis with the Minister or till he ceases to function as OSD to the Minister or until further orders, whichever event occurs the earliest.

2. He will draw pay etc. in his respective grade as per his entitlement under normal rules.

LATHA GOPAKUMAR, Under Secy.

The 14th July 2011

No. A-12023/02/07-Admn.I(A)—In continuation of this Department's Notification of even number dated 24.02.2011 and in pursuance of Department of Personnel & Training's O.M. No. 5/8/2006-CS.II dated 01.07.2011, the term of ad hoc appointment of the following regular Personal Assistants as Steno Grade 'A&B' (Merged) (PS) in the CSSS Cadre of Ministry of Science & Technology is extended for a further period upto 31.12.2011 or till regular PS of CSSS become available, whichever is earlier :—

1. Smt. Emily Singh, DBT
2. Smt. Geeta Malhotra, DBT
3. Smt. Rashmi Hussain

4. Smt. Elizabeth Chandekar
5. Shri Bishan Lal
6. Shri Jagdish Chand

2. The ad hoc appointment shall not confer on the appointments any right to continue in the Grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade 'A&B' (Merged) (PS) of CSSS.

LATHA GOPAKUMAR, Under Secy.

#### MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

New Delhi-110003, the 3rd May 2011

No. 32012/6/2010-IFS.I(AGMUT)—In exercise of the powers conferred by Sub-rule (1) of Rule 8 of the Indian Forest Service (Recruitment) Rules, 1966, read with Sub-regulation (1) of Regulation 9 of the Indian Forest Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1966, the President is pleased to appoint Shri T. C. Nautiyal (Date of Birth : 28.02.1965), an officer of Andaman & Nicobar Sub-segment of UT segment State Forest Service to the Indian Forest Service of Joint AGMUT Cadre against the Select List of 2009 with immediate effect and allocate him to Indian Forest Service of Joint AGMUT (Andaman & Nicobar Sub-segment of UT segment) Cadre under Sub-rule (1) of Rule 5 of the Indian Forest Service (Cadre) Rules, 1966.

JOSEPH LUIKHAM, Under Secy.

New Delhi-110003, the 19th July 2011

No. A-12012/09/2005-P-II(.)—In pursuance of Department of Personnel and Training's O.M. No. 5/27/2010-CS-II(A) dated 16 March, 2011, the President is pleased to appoint Sh. Naresh Kumar (CSL No. 529), a regular Stenographer Grade 'C' of Department of Fertilizers, to the post of Stenographer Grade 'A & B' (Merged) of CSSS for the Select List Year 2009 under the Zoning Scheme for Seniority Quota in the PB-2 (Rs. 9,300—34,800/-) with Grade Pay of Rs. 4,800/- in the Ministry of Environment and Forests with effect from 22nd June, 2011(F. N.).

M. L. WADHWANI, Under Secy.

#### MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

New Delhi-110108, the 25th July 2011

No. A-12025/23/2011-CHS-III—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Sanjay Pandit to the post of Assistant Professor in the Specialty of Medicine in the Teaching Specialist Sub-cadre of Central Health Service, on probation, with effect from the forenoon of 15.04.2011 and until further orders.

LALIT KUMAR, Under Secy.

The 26th July 2011

No. A-31013/01/2011-CHS.-V—The president is pleased to appoint substantively the following Assistant/Associate Professor of Teaching Sub-cadre of the Central Health Service, with effect from the dates indicated against each:—

Sl. No.	Name of the Officer	Date of Appointment	Date of Confirmation
1	2	3	4
1.	Dr. Anirban Hom Choudhuri	06.06.2008	06.06.2009
2.	Dr. Girish M. P.	01.01.2010	01.01.2011
3.	Dr. Mohit Dayal Gupta	01.01.2010	01.01.2011
4.	Dr. Vithal Kumar Mallhi Begeri	11.01.2008	11.01.2009
5.	Dr. Mukta Rani	15.11.2007	15.11.2008
6.	Dr. Gurabati Sunil Kumar Sharma	26.05.2007	26.05.2008
7.	Dr. Shabana Kumar Naik	15.05.2007	15.05.2008
8.	Dr. Manish Kanath	11.11.2008	11.11.2009
9.	Dr. Sunil	30.09.2008	30.09.2009
10.	Dr. Chittaranjan Behera	22.10.2008	22.10.2009
11.	Dr. Hiribya Hulas Nag	06.03.2009	06.03.2010
12.	Dr. Sandeep Singh Saluja	01.05.2009	01.05.2010
13.	Dr. P. K. Mishra	02.09.2003	02.09.2004
14.	Dr. Bhupendra Kumar Bajaj	05.09.2007	05.06.2009
15.	Dr. Ajay Choudhary	16.10.2007	16.10.2008
16.	Dr. Dhendapani Sivasubramanian (resigned from Service w.e.f. 30.06.2011)	26.11.2009	26.11.2010
17.	Dr. S. Bhaskar	19.08.2009	19.08.2010
18.	Dr. Sanjay K. Rajan	19.10.2009	19.10.2010
19.	Dr. Radma Agarwal	26.06.2008	26.06.2009
20.	Dr. Harsha Shailesh Galkwad	15.05.2008	15.05.2009
21.	Dr. Harinder Singh Sethi	01.01.2009	01.01.2010
22.	Dr. Neelam Roy	29.10.2007	29.10.2008
23.	Dr. Rajesh Kumar	25.06.2007	25.06.2008
24.	Dr. Anita Verna	31.12.2007	31.12.2008
25.	Dr. Akhijet Saha	23.02.2008	23.02.2010
26.	Dr. Shikha Sharma	02.03.2009	02.03.2010
27.	Dr. Shipa Sharma	31.03.2008	25.09.2009
28.	Dr. Simmi K Ratan	03.10.2007	03.10.2008
29.	Dr. Deverdia Kumar Yadav	10.01.2009	10.01.2010
30.	Dr. Shandip Kumar Sirha	13.10.2009	13.10.2010

1	2	3	4
31.	Dr. Diganta Borah	19.08.2009	19.08.2010
32.	Dr. Upendra Kumar Sharma	15.04.2008	15.04.2009
33.	Dr. Rakesh Kumar Kain	10.12.2009	10.12.2010
34.	Dr. Durga Karki	05.10.2009	05.10.2010
35.	Dr. Sunil Sharma	23.11.2009	23.11.2010
36.	Dr. Rohini Gupta	10.11.2008	10.11.2009
37.	Dr. Sushanta Neogi	14.03.2008	14.03.2009
38.	Dr. Pawan Lal	20.08.2008	20.08.2009
39.	Dr. Nain Singh	07.01.2009	07.01.2010
40.	Dr. Ashok Kumar Singh	12.08.2008	12.08.2009
41.	Dr. Nikhil Khattar	23.12.2008	23.12.2009

LALIT KUMAR, Under Secy.

New Delhi-110108, the 29th July 2011

No. A-12025/08/2011-CHS.-III—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Deepak Ghuliani to the post of Assistant Professor in the Specialty of Surgery in the Teaching Specialist Sub-cadre of Central Health Service, on probation, with effect from the forenoon of 28.02.2011 and until further orders.

LALIT KUMAR, Under Secy.

## DEPARTMENT OF HEALTH &amp; FW

New Delhi, the 7th July 2011

No. A-19013/06/2011-E.-I—Consequent upon inclusion of her name in the CSS Senior Selection Grade (Director) Select List for the year 2011 and in pursuance of Department of Personnel & Training's Office Order No. 3/2/2011-CS.-I (D) dt. 01.07.2011, Ms. Preeti Pant, Selection Grade (Deputy Secretary) of CSS is hereby appointed to the Senior Selection Grade (Director) of CSS on regular basis in the Department of Health & Family Welfare with effect from 01.07.2011 (F. N.).

ANIL KUMAR, Under Secy.

The 1st August 2011

No. A-38016/12/2010-Estt.-III—Sh. Ram Sahay Meena 'Kalky', Editor (Hindi) in the Department of Health and Family Welfare, Ministry of Health & Family Welfare has retired from Government Service on 31.07.2011 (A. N.) on attaining the age of superannuation.

ANIL KUMAR, Under Secy.

## DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES

New Delhi, the 28th July 2011

No. A-32012/01/2007-Admn.-I—On the recommendations of the Union Public Service Commission the President is pleased to appoint Shri F. C. Luthra, Assistant Architect, Central Design Bureau, Dte GHS to the post of Deputy Architect, CDB (Group 'A' post in PB-3, Rs. 15,600—39,100/-) with Grade Pay of Rs. 5,400/- on promotion basis with effect from the date he assumed the charge of the post i.e. 07.06.2011.

R. K. KALRA, Dy Director Admn. (RKK).

## MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION)

New Delhi, the 18th July 2011

No. A-19012/06/2011-EA.—The President is pleased to appoint Shri R. P. Bhargia, a Senior Administrative Grade Level Officer of Indian Economic Service (IES), to the post of Advisor, in the Commission for Agricultural Costs and Prices, Department of Agriculture and Cooperation, in the pay scale of PB-4 Rs. 37,400—67,000/- plus Grade Pay of Rs. 10,000/-, with effect from the forenoon of 01st July, 2011(FN).

A. K. ARORA, Under Secy.

## MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

New Delhi-110114, the 29th July 2011

No. A-32013/01/2010-Estt.-II—The President is pleased to appoint Smt. Madhu Kapoor as Principal Private Secretary in the Pay Band (PB-3) of Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 6,600/- on adhoc basis in the CSSS cadre of the Ministry of Rural Development with effect from the forenoon of 09th July, 2011.

GEORGE Y., Under Secy.

## DEPARTMENT OF LAND RESOURCES

New Delhi-110011, the 25th July 2011

No. A-19013/03/2009-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Surendra Kumar, IFS (KL : 1986) as Joint Secretary with effect from 05th July, 2011 (F/N) in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- (PB : 4) plus Grade Pay of Rs. 10,000/- in the Department of Land Resources on deputation basis for a period of one year, 10 months and 22 days or until further orders, whichever is earlier.

ANOOP KUMAR, Under Secy.

No. A-19011/01/2011-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Prabhudayal Meena, IAS (MP : 80) as Additional Secretary in the Department of Land Resources from the afternoon of 11th July, 2011.

ANOOP KUMAR, Under Secy.

## MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 5th July 2011

No. F-15-2576/2011-E.-I—Consequent upon inclusion of her name in the CSS Senior Selection Grade (Director) Select List the year 2011 vide DoPT's Order No. 3/2/2011-CS.-I(D) dated 01st July, 2011, the President is pleased to appoint Dr. Meenakshi Jolly, Deputy Secretary (Selection Grade) as Director (Senior Selection Grade) on regular basis in the Ministry of Human Resource Development w.e.f. 04.07.2011(F.N.).

SANJAY GUPTA, Under Secy.

## MINISTRY OF WOMEN &amp; CHILD DEVELOPMENT

New Delhi, the 24th June 2011

No. 21-01/2011-Admn.—Consequent upon her promotion as Principal Private Secretary (PPS) of CSSS on ad-hoc basis in pursuance of DoPT's OM No. 3/1/2011-CS.-II(A) dated 29th March, 2011 and nomination to the Ministry of Women and Child Development, the President is pleased to appoint Smt. Rupa Sharma, a regular Private Secretary of CSSS to the post of PPS [PB-3, Rs. 15,600—39,100 + Rs. 6,600/- (Grade Pay)] on ad-hoc basis in the Ministry of Women & Child Development with effect from the forenoon of 07 June, 2011 (F.N.).

NAVEEN YADAV, Under Secy.

The 28th June 2011

No. 05-02/2011-Admn.—Consequent upon nomination for appointment to Steno Grade 'A & B' (Merged) and her inclusion in the Select List 2008 of CSSS vide DoPT's OM No. 5/25/2010-CS.-II(A) dated 26th April, 2011, the President is pleased to appoint Smt. Rajeshwari Kumar as Steno Grade 'A & B' (Merged) in the CSSS Cadre of Ministry of Women and Child Development with effect from the forenoon of 16th June, 2011.

NAVEEN YADAV, Under Secy.

## MINISTRY OF CULTURE

New Delhi, the 11th July 2011

No. A-19011/10/2011-Estt.—In pursuance of Department of Personnel & Training's (Office of the Establishment Officer) Office Memorandum No. 4/96/2011-EO (MM I) dated

13th June, 2011, Shri Deepak Ashish Kaul, Indian P&T Accounts & Finance Service (95) has assumed the charge of Director in the Ministry of Culture in the forenoon of 8th July, 2011 for a period of five years or until further orders, whichever event takes place earlier.

VANITA SOOD, Under Secy.

#### MINISTRY OF SOCIAL AND EMPOWERMENT

New Delhi, the 25th July 2011

No. A-32014/01/2008-Estt.II—In pursuance of Department of Personnel & Training's O.M. No. 4/2/2011-CS-II (A) dated 31st March, 2011, the President is pleased to appoint the following substantive Personal Assistants of this Ministry to the post of Grade 'A' & 'B' (Merged) (Private Secretary) (Group 'B' Gazetted, Ministerial) in the Ministry of Social Justice and Empowerment in the Pay Band-2 (Rs. 9,300—34,800/-) with Grade Pay Rs. 4,800/- with effect from the forenoon of 15th July, 2011 for a period upto 30.09.2011, or till the regular Private Secretaries become available, whichever is earlier :—

Sl. No.	Name
1.	Sh. L. Muthukrishnan
2.	Sh. Kavita Sandhu
3.	Sh. R. C. Kapur
4.	Sh. Kulvinder Singh
5.	Sh. D. pavan Kumar
6.	Sh. Nitesh Bhasin
7.	Smt. Yogita Anand
8.	Smt. Vibhuti Panjiyar
9.	Sh. Surender Pal

2. The ad hoc appointment shall not confer on the appointees any right to continue in the grade of Private Secretary indefinitely or for inclusion in the Select List for regular promotion or claim any seniority in the grade of Private Secretary and can be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

VIOND KUMAR SHARMA, Under Secy.

#### MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

New Delhi, the 19th July 2011

No. 11019/1/2005-Estt.—In pursuance of Ministry of Statistics & Programme Implementation Office Order No. 12015/1/2011-ISS dated 27.07.2011, the President is pleased to appoint Shri Saurabh Kumar Dubey, as Assistant Director

in the Ministry of Tribal Affairs with effect from the forenoon of 28.06.2011.

N. RAMAKRISHNAN, Under Secy.

#### MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

New Delhi-110001, the 31st July 2011

No. A-38012/2/2011-Estt.—The President is pleased to retire Shri Vivek Mehrotra, IAS (HY : 74), Secretary, Ministry of Minority Affairs on 31.07.2011, on attaining the age of superannuation.

LUCAS L. KAMSUAN, Dy. Secy.

No. A-38013/5/2011-Estt.—The President is pleased to retire Smt. Neelam Bhanot, Section Officer on 31.07.2011, on attaining the age of superannuation.

LUCAS L. KAMSUAN, Dy. Secy.

#### MINISTRY OF COMMUNICATIONS & INFORMATION TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY)

#### NATIONAL INFORMATICS CENTRE

New Delhi-110003, the 29th July 2011

No. PF/141/NIC/2011/Adm-I—Shri A. Sreedhara Sastry, Scientist "G" (Deputy Director General) (Emp. Code : 141), National Informatics Centre, New Delhi is retiring on superannuation from Government Service with effect from the afternoon of 31st July, 2011 and he stands relieved of his duties from the same day.

R. M. NAIR, Jt. Dir. (Adm-I)

No. PF/3256/NIC/2011/Adm-I—The President is pleased to accept the technical resignation of Shri Shailendra Kumar Tyagi, Emp. Code-3256, from the post of Scientist 'D' National Informatics Centre, New Delhi with effect from the afternoon of 29.07.2011 to take up the appointment in STPI, (DIT) and he stands relieved from his duties from the same day. Shri Shailendra Kumar Tyagi is hereby directed to report, Senior Administrative Officer, STPI, Electronics Niketan, 6 CGO Complexs, Lodi Road, New Delhi immediately.

R. M. NAIR, Jt. Dir. (Adm-I)

No. PF/3513/NIC/2011/Adm-I—The President is pleased to accept the technical resignation of Shri Sanjay Kumar Gupta, Emp. Code-3513, from the post of Scientist 'D' National Informatics Centre, New Delhi with effect from the afternoon of 29.07.2011 to take up the appointment in STPI, (DIT) and he stands relieved from his duties from the same



day. Shri Sanjay Kumar Gupta is hereby directed to report, Senior Administrative Officer, STPI, Electronics Niketan, 6 CGO Complex, Lodi Road, New Delhi immediately.

R. M. NAIR, Jt. Dir. (Adm-I)

#### DEPARTMENT OF POSTS

New Delhi-110001, the 18th July 2011

No. 1-1/2010-Admn.—In pursuance of Department of Personnel and Training's Office Order No. 3/2/2011-CS-I (D) dated 01.07.2011, the President is pleased to appoint following Selection Grade (Deputy Secretary) Officers as Senior Selection Grade (Director) of CSS w.e.f. 01.07.2011 in the Department of Posts in the Pay Band PB-4 of Rs. 37,400—67,000/- + Rs. 8,700/- (Grade Pay) consequent upon their inclusion in the Senior Selection Grade (Director) of CSS for the Select List 2011 vide DoP&T's O.M. No. 3/3/011-CS-I (D) dated 20th June, 2011 :—

Sl. No.	Name
---------	------

- |    |                                |
|----|--------------------------------|
| 1. | Shri R. B. Chawla (CSL 4168)   |
| 2. | Shri S. K. Tripathi (CSL 3447) |

HARISH POKHRIYAL, Asstt. Dir. Gen. (Admn.)

#### MINISTRY OF RAILWAYS

##### (RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 25th July 2011

No. E(GP)/2007/3/2—The President is pleased to appoint the undermentioned Group 'B' Officer of Civil Engineering Department of Indian Railways to Group 'A'/Junior Scale of Indian Railway Service of Engineers (IRSE) with effect from 21.04.2009, on the Railway mentioned as under :—

#### PANEL FOR 2008-2009

Name of the Officer

North Western Railway

- Shri A. K. Saxena\*

\*Shri A. K. Saxena would, however, be entitled to monetary benefits in Jr. Scale w.e.f. 01.07.2011.

V. K. GUPTA, Secy.  
(Railway Board)

The 29th July 2011

No. ERB-1/2011/2/33—The President is pleased to appoint Shri Vinay Mittal, IRTS, General Manager, South

Eastern Railway, as Chairman Railway Board and Ex-officio Principal Secretary to the Government of India w.e.f. afternoon of 30.06.2011.

V. K. GUPTA, Secy.  
(Railway Board)

#### MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 22nd July 2011

No. 1/2011 (F. No. 25/2(23)/2009-E.I.)—On the results of the Engineering Services Examination, 2008 (Reserve List) the President is pleased to appoint Shri Asheesh Kumar Singhal to officiate as Assistant Director/Assistant Executive Engineer (Civil & Mechanical) of the Central Water Engineering (Group-'A') Service in the PB-3 Pay Scale of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 5,400/- in the Central Water Commission with effect from 15.06.2011 (FN).

2. Shri Asheesh Kumar Singhal will be on probation for a period of two years with effect from the date of joining, which may be extended, if considered necessary.

K. RAJAPPA, Under Secy.

No. 3/2011 (F. No. 25/2(31)/2009-E.I.)—On the results of the Engineering Services Examination, 2008 (Reserve List) the President is pleased to appoint Shri Satyendra Pratap Singh to officiate as Assistant Director/Assistant Executive Engineer (Civil & Mechanical) of the Central Water Engineering (Group-'A') Service in the PB-3 Pay Scale of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 5,400/- in the Central Water Commission with effect from 01.06.2011 (FN).

2. Shri Satyendra Pratap Singh will be on probation for a period of two years with effect from the date of joining, which may be extended, if considered necessary.

K. RAJAPPA, Under Secy.

The 25th July 2011

No. 4/2011 (F. No. 25/2(29)/2009-E.I.)—On the results of the Engineering Services Examination, 2008 (Reserve List) the President is pleased to appoint Ms. Seema Pandey to officiate as Assistant Director/Assistant Executive Engineer (Civil & Mechanical) of the Central Water Engineering (Group-'A') Service in the PB-3 Pay Scale of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 5,400/- in the Central Water Commission with effect from 01.07.2011 (FN).

2. Ms. Seema Pandey will be on probation for a period of two years with effect from the date of joining, which may be extended, if considered necessary.

K. RAJAPPA, Under Secy.

The 27th July 2011

No. 2/2011 (F. No. 25/2(28)/2009-E.I.)—On the results of the Engineering Services Examination, 2008 (Reserve List) the President is pleased to appoint Shri Shashank Bhushan to officiate as Assistant Director/Assistant Executive Engineer (Civil & Mechanical) of the Central Water Engineering (Group-'A') Service in the PB-3 Pay Scale of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 5,400/- in the Central Water Commission with effect from 15.06.2011 (FN).

2. Shri Shashank Bhushan will be on probation for a period of two years with effect from the date of joining, which may be extended, if considered necessary.

K. RAJAPPA, Under Secy.

No. 5/2011, (F. No. 25/1(2)/2010-E.I.)—On the results of the Engineering Services Examination, 2008 (Reserve List) the President is pleased to appoint Shri Rahul Kumar to officiate as Assistant Director/Assistant Executive Engineer (Civil & Mechanical) of the Central Water Engineering (Group-'A') Service in the PB-3 Pay Scale of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 5,400/- in the Central Water Commission with effect from 28.02.2011 (FN).

2. Shri Rahul Kumar will be on probation for a period of two years with effect from the date of joining, which may be extended, if considered necessary.

K. RAJAPPA, Under Secy.

No. 6/2011, (F. No. 25/1(6)/2010-E.I.)—On the results of the Engineering Services Examination, 2008 (Reserve List) the President is pleased to appoint Shri Mayank Suhirid to officiate as Assistant Director/Assistant Executive Engineer (Civil & Mechanical) of the Central Water Engineering (Group-'A') Service in the PB-3 Pay Scale of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 5,400/- in the Central Water Commission with effect from 15.07.2011 (FN).

2. Shri Mayank Suhirid will be on probation for a period of two years with effect from the date of joining, which may be extended, if considered necessary.

K. RAJAPPA, Under Secy.

No. 7/2011, (F. No. 25/1(7)/2010-E.I.)—On the results of the Engineering Services Examination, 2008 (Reserve List) the President is pleased to appoint Shri Akhil Akhouri to officiate as Assistant Director/Assistant Executive Engineer (Civil & Mechanical) of the Central Water Engineering (Group-'A') Service in the PB-3 Pay Scale of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 5,400/- in the Central Water Commission with effect from 09.06.2011 (FN).

2. Shri Akhil Akhouri will be on probation for a period of two years with effect from the date of joining, which may be extended, if considered necessary.

K. RAJAPPA, Under Secy.

No. 8/2011, (F. No. 25/1(5)/2010-E.I.)—On the results of the Engineering Services Examination, 2008 (Reserve List) the President is pleased to appoint Shri D. Ashokan to officiate as Assistant Director/Assistant Executive Engineer (Civil & Mechanical) of the Central Water Engineering (Group-'A') Service in the PB-3 Pay Scale of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 5,400/- in the Central Water Commission with effect from 15.06.2011 (FN).

2. Shri D. Ashokan will be on probation for a period of two years with effect from the date of joining, which may be extended, if considered necessary.

K. RAJAPPA, Under Secy.

No. 9/2011, (F. No. 25/2(26)/2009-E.I.)—On the results of the Engineering Services Examination, 2008 (Reserve List), the President is pleased to appoint Shri Samarth Agarwal to officiate as Assistant Director/Assistant Executive Engineer (Civil & Mechanical) of the Central Water Engineering (Group-'A') Service in the PB-3 Pay Scale of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 5,400/- in the Central Water Commission with effect from 09.05.2011 (FN).

2. Shri Samarth Agarwal will be on probation for a period of two years with effect from the date of joining, which may be extended, if considered necessary.

K. RAJAPPA, Under Secy.

No. 10/2011, (F. No. 25/2(27)/2009-E.I.)—On the results of the Engineering Services Examination, 2008 (Reserve List), the President is pleased to appoint Smt. Shachi Jain to officiate as Assistant Director/Assistant Executive Engineer (Civil & Mechanical) of the Central Water Engineering (Group-'A') Service in the PB-3 Pay Scale of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 5,400/- in the Central Water Commission with effect from 18.07.2011 (FN).

2. Smt. Shachi Jain will be on probation for a period of two years with effect from the date of joining, which may be extended, if considered necessary.

K. RAJAPPA, Under Secy.

New Delhi, the 20th July 2011

No. 7/2011, (F. No. 20/28/2003)-Admn.(Pt.)—Consequent upon his inclusion in the Senior Selection Grade (Director) of Central Secretariat Service (CSS) for the year 2011, the President is pleased to appoint Shri S. V. Singh, Deputy Secretary in the Ministry of Water Resources as Director in

PB-4 of Rs. 37,400—67,000 + Rs. 8,700/- (Grade Pay), as a measure personal to him, w.e.f. the forenoon of 01.07.2011.

KHATCHIN LANGEL, Dy. Secy.

## MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 19th July 2011

No. 301/12/2009-F(F)—On the recommendation of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Shri Rizwan Ahamd to the post of Deputy Director in the Directorate of Film Festivals, New Delhi in the Scale of Pay of Rs. 15,600—39100/- (PB-3) with Grade Pay of Rs. 6,600/- with effect from the forenoon of 12th July, 2011.

2. Shri Rizwan Ahamd has been medically examined and found fit for Government Service.

3. Shri Rizwan Ahamd will be on probation for a period of one year from the date of his appointment.

S. NAGANATHAN, Under Secy.

New Delhi-110001, the 20th July 2011

No. 281/2011 (F No. 5/1/2007-Admn. II)—Consequent upon inclusion of her name in the Senior Selection Grade (Director) of CSS for the year 2011 and nomination to the Ministry of Information & Broadcasting vide DoPT's Office Order No. 3/2/2011.CSI(D) dated 01/07/2011, the President is pleased to appoint the following Deputy Secretary of CSS cadre of this Ministry as Director with effect from 01/07/2011 on regular basis in this Ministry as per details mentioned below:—

Name	Inclusion in the year of the Senior Selection Grade (Director)	Present Posting
Ms. G. Jayanthi	2011	Main Sectt.

2. Further, she will continue to work at her present place of posting as mentioned above until further orders.

S. S. BEDI, Under Secy.

New Delhi-110 001, the 29th July 2011

No. 704/14/2006-B(D)—The President is pleased to accept the resignation tendered by Shri Harkesh Gupta, CMD, Broadcast Engineering Consultants India Limited, w.e.f. 31st December, 2011 (Afternoon).

AMRIT LAL, Dy. Secy.

New Delhi, the 6th July 2011

No. A-12025/2/2007-IIS (Vol.II)—On the basis of the result of the Civil Services Examination 2008 (Supplementary List), the President is pleased to appoint the following candidates in the Junior Grade of Indian Information Service, Group 'A'

in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 5,400/- (Pre-revised Pay Scale of Rs. 8,000-275-13,500/-) with effect from the dates mentioned against their names:—

S. No.	Name of the candidates	Rank No.	Date of appointment
1.	Shri Pranjalya Parth Lathe	842	23.05.2011 (FN)
2.	Shri Mukesh Kumar	861	01.06.2011 (FN)

2. The above mentioned officers will be on probation for a period of 2 years with effect from the date of appointment in the Junior Grade of Indian Information Service Group 'A'.

3. They have been posted as Assistant Directors in the following media units until further orders:—

1. Sh. Pranjalya Parth Lathe — NSD : AIR, New Delhi
2. Sh. Mukesh Kumar — PIB, New Delhi

RENU ARORA, Under Secy.

## MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT)

New Delhi, the 25th July 2011

No. A-12026/2/2009-TCPO/Admn.III/UD-II—On the basis of recommendation of Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Shri R. Srinivas, Associate Town & Country Planner in Town & Country Planning Organisation to the post of Senior Social Scientist in the PB-3 Rs. 15,600—39,100+Grade Pay Rs. 7,600/- in the same Organisation on deputation basis with effect from 20th June, 2011 for a period of two years in the first instance.

K. G. MOHANTA, Under Secy.

## MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT

New Delhi, the 15th July 2011

No. A-32014/01/2008-Admn.I(Pt.)—The President is pleased to extend the appointment of the following Assistants of CSS Cadre of the Ministry of Labour & Employment to the grade of Section Officer (Group 'B'/Gazetted) (Pay Band-2 : Rs. 9,300—34,800/-, Grade Pay Rs. 4,800/-) on ad-hoc basis in this Ministry for a period upto 30.09.2011, in pursuant to DoP&T's O.M. No. 6/9/2010-CS-I (S), dated 07.07.2011:—

Sl. No.	Name of the Officer	Select List Year
1	2	3
	(S/Shri/Smt./Ms.)	
1.	J. K. Kashyap	1992
2.	B. D. Sharma	1992
3.	Sunita Sharma	1992

1	2	3
4.	S. P. Goyal	1992
5.	M. R. Chandwara (SC)	1992
6.	N. K. Joshi	1993
7.	I. D. Sharma	1993
8.	Prem Chopra	1993
9.	R. K. Trehan (SC)	1993
10.	Naresh Kumar	1994
11.	Rita Singh	1994
12.	Om Prakash (SC)	1994
13.	Sheesh Ram (SC)	1994
14.	V. C. Tripathi	1995
15.	Saroj Bala Bhatia	1995
16.	Anil Kumar Sharma	1995
17.	Vinod Kumar (SC)	1995
18.	Yogendra V. Ranadive (ST)	1995
19.	Jamna Dass (SC)	1995
20.	B. T. Chichulkar (ST)	1998
21.	Virender Kumar	1999

2. The appointment of the above named Assistants to the post of Section Officers on ad-hoc basis is subject to the following conditions:—

- (a) The period of ad-hoc promotion would be upto 30.09.2011 or till the regular Section Officers are made available or until further orders, whichever is earlier.
- (b) The ad-hoc appointment shall not confer on the appointee any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List of Section Officers for regular appointment or to claim Seniority in the Section Officers Grade of CSS.
- (c) Ad-hoc appointment would continue till regular candidates in Section Officer Grade are available either through Seniority Quota and/or Limited Departmental Competitive Examination (LDCE). In the event of the ad-hoc appointees not qualifying for regular appointment in either of these two categories, they shall be reverted to the Assistant's Grade on availability of such regular officers from the date they (regular Section Officers) join duty in their respective cadre units allotted to them by the DOP&T.

PRADEEP GAUR, Under Secy.